

अनमोल विचार

बड़ा सोचे, जल्दी सोचे, आगे सोचे विचारों पर किसी का

एकाधिकार नहीं है।

» धीरूभाई अंबानी

www.vijaymat.com

भोपाल, बुधवार, 1 मई 2024

वर्ष- 09 अंक - 134 पेज-08 मूल्य- ₹ 1100/-

न्यूज़ इन शॉर्ट

आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में चहुओर विकास की राह पर अग्रसर है : राजनाथ सिंह

विजय मत, बुधवार। हम राजनीति देश बनाने के लिए करते हैं, लेकिन विरोधी दल आरपीएम के तहत, बुधवार पर देश को तब तक के लिए करते हैं। हमारी पार्टी ने जो वादा किए उसे अग्रसर-पूर किया यह भारतीय जनता पार्टी है। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चहुओर विकास की राह पर अग्रसर है और



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बढ़ी है। उक्त बात टाकरी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षागोष्ठ-बुधवार

लोकसभा प्रत्याशी गजेन्द्र सिंह परेल के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई तब तक नहीं मिलती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमें ध्यान से सुनता है, यह है मोदीजी का कमाल। कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदीजी ने वैश्वीकरण के साथ मिलकर कोरोना का टीका तैयार करवाया, भारत की ताकत देखिए भारत के 140 करोड़ लोगों के अलावा 100 देशों को भी टीका लगवाया व देश को कोरोना की महामारी से आरक्षित।

सीएम योगी बंगाल में बोले। उत्साह के साथ करें मतदान, बंगाल सरकार से कई प्रश्न भी पूछे

लखनऊ, एप्रैल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। सीएम योगी ने



यहां तीन चुनावी रैली की। पहली रैली मुर्शिदाबाद जिले में बरहामपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉ. निर्मल कुमार साह के पक्ष में। जहां सीएम योगी ने संदेशवाचन और शान्तवर्णी में देते को लेकर बंगाल सरकार से कई प्रश्न भी पूछे। उन्होंने कहा कि बंगाल को दंगा-कर्फूस से मुक्त करने के लिए भाजपा को वोट दें। सीएम योगी ने कहा कि जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था।

गर्म में लड़की की जानकारी मिलेगी, तो पैदा होने के बाद उसकी जान बचा सकते हैं

नई दिल्ली, एप्रैल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख आरवी अशोकन ने कहा है कि गर्भ का लिंग पता करने पर रोक लगाने से



कच्चा भूण हत्या तो रोक सकता है, लेकिन इससे बच्ची के पैदा होने के बाद उसकी हत्या नहीं रोकी जा सकती है। ये बात अशोकन ने

चुनाव जीतना मुश्किल देख भाजपा अब लोगों में डर पैदा कर रही है : पवन खेडा

अहमदाबाद, एप्रैल। कांग्रेस के नीटिडि और प्लिनसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत



मुश्किल देख अब भाजपा लोगों में डर पैदा करने का प्रयास कर रही है। 10 साल के आगे शासन का रिपोर्ट कई जनता के समक्ष पेश करने के बजाए भाजपा केवल हर दिन विवाद पैदा कर रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवन खेडा ने कहा कि गुजरात हमेशा न्याय की लड़ाई में सबसे आगे रह रहा है। गुजरात अहंकार को तोड़ना जानता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भारत दौरे की प्रेरणा गुजरात से ली। युवाओं, किसानों, महिलाओं, आदिवासी समाज को समझना ही एक नेता का गुण है।

लोकसभा चुनाव के बाद होगी प्रशासनिक जिम्मावट, अनुराधा शंकर बनीं स्पेशल डीजी

विजय मत, भोपाल

लोकसभा चुनाव के बाद मोहन सरकार के कविकिंग मोड में आने के तीन माह बाद प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया का रिटायरमेंट नजदीक आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नए सिरे से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के पद पर अफसरों की जमावट करनी होगी। इस साल दिसंबर तक एसीएस और कमिश्नर स्तर के 11 आईएएस और डीजी, एडीजी व आईजी स्तर के 11 आईपीएस अधिकारी रिटायर होंगे। इन अफसरों के रिटायरमेंट के बाद जीएडी और गृह विभाग रिक्त पदों



पर सैनियरों अफसरों को प्रमोट करेंगे। मार्च में रिटायर होने वाली मुख्य सचिव वीरा राणा को छह माह का एकवर्षीय मिलने के बाद 30 सितंबर को उन्हें सेवानिवृत्त मिलेगी। राणा को अगर सीएम मोहन यादव फिर एकवर्षीय नहीं दिलाते हैं तो वे सितंबर में ही रिटायर होंगी और तब उनके स्थान पर नए सीएस की पोस्टिंग करनी होगी। जीएडी के अफसरों के मुताबिक अभी नए सीएस के रूप में एक बार फिर केंद्र में पदस्थ अनुराधा जैन के नाम की चर्चा है जो अगले साल रिटायर होने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट को ईडी दे जवाब, केजरीवाल को चुनाव पूर्व वयों गिरफ्तार किया?

नई दिल्ली, एप्रैल। आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल करते हुए जवाब पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता की पीठ ने मंगलवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस्वी राजू से समय के सवाल पर जवाब देने को कहा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल करते हुए कहा, कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं।

खास खबर

पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंता

नई दिल्ली, एप्रैल

सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जुड़े भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की खिंची की। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जुड़े भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई



हुई। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण

की खिंची की। संस्था द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल के आदेश के बाद ही कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो गया है। 10 अप्रैल को सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई थी। कहा था कि वह इसे हल्के में नहीं लेगी।

67 समाचार फॉर्मों में छपवाया माफ़ीनामा

रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि वे अपनी गलतियों के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन भी जारी करेंगे। बताया कि उन्होंने देश भर के 67 समाचार पत्रों में माफ़ीनामा प्रकाशित कराया है। शीर्ष अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की 16 अप्रैल को हिदायत दी थी कि वे 'एलोपैथी को नीचा दिखाने' का कोई प्रयास नहीं करें।

टीका बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूली

कोविशील्ड वैक्सीन से जम सकता है खून का थक्का

लंदन, एप्रैल

वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना है कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदयगत धमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ब्रिटेन के हाईकोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूल की है। हालांकि, वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या चुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। यह खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कोविड-19 के प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था।



दुनिया के कई देशों को निर्यात किया गया

भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से हासिल लाइसेंस के तहत देश में इस वैक्सीन का उत्पादन किया था और इसे सिर्फ भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में ही नहीं इस्तेमाल किया गया था, बल्कि दुनिया के कई देशों को निर्यात किया गया। कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों में वैक्सजेवरिया ब्रांड नाम से भी बेचा गया था। एस्ट्राजेनेका पर यह मुकदमा जेमी स्कॉट ने दायर किया है, जो इस टीके को लेने के बाद ब्रेन डैमेज के शिकार हुए थे। कई परिवारों ने भी कोर्ट में इस टीके के दुष्प्रभावों की शिकायत की थी।

कंपनी से मुआवजे की मांग


अब सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी है। कंपनी के इस स्वीकारोक्ति के बाद अब मुआवजा मांगने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। भारत में कोविड के बाद ऐसी मौतों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी, जिनमें कारण का स्पष्ट पता नहीं चला था। इनमें से अधिकांश को किसी न किसी शारीरिक समस्या से जोड़ कर देखा गया और सरकार व स्वास्थ्य जगत ने यह कभी नहीं माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण ऐसा हो सकता है।

कोर्ट पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने शरीर को पहुंचे नुकसान के लिए कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग की है। खास बात यह है कि ब्रिटेन ने इस वैक्सीन पर सख्त सख्त है। भारत में कोविड के बाद ऐसी मौतों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी, जिनमें कारण का स्पष्ट पता नहीं चला था। इनमें से अधिकांश को किसी न किसी शारीरिक समस्या से जोड़ कर देखा गया और सरकार व स्वास्थ्य जगत ने यह कभी नहीं माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण ऐसा हो सकता है।

कई बार रेप से लड़की निम्फोमेनियाक हुई आरोपी को जमानत देना पीड़ित के घावों को बढ़ाने जैसा: हाईकोर्ट

गुंबई, एप्रैल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लड़की के साथ कई बार रेप करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। लड़की जब 10 साल की थी आरोपी तब से उसके साथ रेप कर रहा था। कोर्ट ने कहा, बार-बार रेप के कारण लड़की निम्फोमेनियाक हो गई है। आरोपी को



जमानत देना उसके घावों को और अधिक बढ़ाने के समान होगा जो अभी भी उसके दिमाग, शरीर और आत्मा में ताजा हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस ने कहा कि अपराध न केवल एक विवेकशील व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है, बल्कि अप्रिय भी है।

कर्ज देने वाले संस्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने चलाया चाबुक, कहा- गलत ब्याज लिया तो तुरंत लौटाएं

गुंबई, एप्रैल

केंद्रीय बैंक ने कहा, सभी आरई कर्ज वितरण के तरीके, ब्याज के आवेदन और अन्य शुल्कों के संबंध में अपनी प्रथाओं की समीक्षा करें। सिस्टम स्तर पर बदलाव करें। ब्याज वसूलने के मुद्दे पर जरूरी सुधारत्मक कार्रवाई करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर कर्ज देने वाले बैंकों के साथ वित्तीय संस्थानों पर चाबुक चलाया है। इसने कहा, जिन संस्थानों ने भी गलत तरीके से अतिरिक्त ब्याज लिया है, वे तुरंत



इस पर कार्रवाई करें और इसे लौटा दें। ये संस्थान ब्याज वसूलने में अनुचित तरीकों का सहारा ले रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है। आरबीआई ने सोमवार को जारी

प्रधानमंत्री मोदी बोले जो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो यह झूठ फैला रहे मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिक रहे

गुंबई, एप्रैल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 30 अप्रैल को महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौर पर हैं। अब तक वे महाराष्ट्र के थाराशिव, माडा और लातूर में सभाएं कर चुके हैं। थाराशिव में उन्होंने कहा- जो विरोधी भाजपा सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वे



सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो

चलाकर तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी हालत ऐसी है कि जब उनका झूठ काम नहीं कर रहा तो वे मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बेच रहे हैं। झूठ की यह दुकान बंद होनी

चाहिए। मोदी ने कहा- हमारी सरकार दुनियाभर में बाजरा को लोकप्रिय बनाने पर जोर दे रही है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बाजरा दुनियाभर में खाने की मेज तक पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेरे लिए राजकीय राजिभोज दिया था, उसके मेन्यू में बाजरा था।

राहुल बोले, महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8500 मिलेंगे

हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरेंगे

विजय मत, व्यूरो मिड

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिंड में कहा, मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया, हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत देशभर की गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे। हर महीने उनके खाते में 8500 रुपए डाले जाएंगे। 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद



भरे जाएंगे। राहुल गांधी ने भिंड-दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बैरैया के पक्ष में

क्या लाइसेंसिंग संस्था ने कानून के अनुसार कार्रवाई की?

नई दिल्ली, एप्रैल

सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जुड़े भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की खिंची की। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जुड़े भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई



हुई। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण

की खिंची की। संस्था द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल के आदेश के बाद ही कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो गया है। 10 अप्रैल को सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई थी। कहा था कि वह इसे हल्के में नहीं लेगी।

67 समाचार फॉर्मों में छपवाया माफ़ीनामा

रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि वे अपनी गलतियों के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन भी जारी करेंगे। बताया कि उन्होंने देश भर के 67 समाचार पत्रों में माफ़ीनामा प्रकाशित कराया है। शीर्ष अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की 16 अप्रैल को हिदायत दी थी कि वे 'एलोपैथी को नीचा दिखाने' का कोई प्रयास नहीं करें।

यूज इन शॉर्ट



कमिश्नर ने आवास निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ करवाया

शहडोल। कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद को शहडोल जिले के सोसलग्रुप विकासखंड के गाम पंचायत मैकी की श्रीमती सुलखी बाई बैगा ने अपेदन करते हुए बताया कि उन्हें अपने निजी पुस्तैनी भूमि जिसका खसरा नंबर 550 / 6 रकबा 0.53 डिसिमिल है, में पूर्व में आवास स्वीकृत हुआ था। इस भूमि में आवास बनाने पर गांव के कुछ लोगों द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है तथा आवास का कार्य प्रारंभ करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है श्रीमती सुलखी बाई बैगा ने कमिश्नर से आग्रह किया कि उन्हें उनकी निजी भूमि में आवास बनाने हेतु उचित कार्यवाई की जाए तथा आवास बनाने में गतिरोध उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध कार्यवाई की जाए। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री बीएस जामोद ने इस विषय में वर्यु दिशित की जानकारी मुख्य कार्यालय अधिकारी लीला पंचायत शहडोल से ली, तथा निर्देश दिए की श्रीमती सुलखी बाई को आवास बनाने में आ रही गतिरोध को दूर करें, तथा इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कमिश्नर के निर्देश पर अधिकारियों के दल ने गाम मैकी पहुंचकर श्रीमती सुलखी बाई बैगा के आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया।

आज मई दिवस मनाने बैठक का आयोजन किया गया



शहडोल। 28 अप्रैल 2024 को एल आई सी मंडल कार्यालय में जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल, शहडोल की गई जिसमें मई दिवस को मनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया की 1 मई 2024 को शाम 5-30 से शहडोल में ट्रेड यूनियन काउंसिल के आह्वान पर इंदिरा चौक से एक पैदल निकलेगी जो गुरु नानक चौक, गांधी चौक होते हुए सुराज स्कूल के सामने एक सभा में तबदील होगी। बैठक में एल आई सी से अधिकारी संघ, विकास अधिकारी संघ, अतिकर्ता संघ एवं साथी, मेडिकल रिपोजेण्टिव यूनियन से जनता यूनियन, बीएसएनएल एफएलएन यूनियन, सीटू से आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता, जेआईसी के कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश पेशनर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथी, ऑटो चालक संघ, सविता स्वास्थ्य कर्मी फुटपाथ एवं टेला श्रमिक संघ के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लिए।

162 चालानों में 71,200/- रुपये समंस शुल्क वसूल

शहडोल। पुलिस द्वारा बीते दिवस बिना हेल्मेट लगाए दो पहिया वाहन चालाने वाले, बिना सीटबेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चालाने वाले चालकों एवं अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत 162 चालानों में 71 हजार 200/- रुपये समंस शुल्क वसूल किया गया कार्यवाही जारी है। पुलिस द्वारा संबंधितों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए नियमों का पालन करने हेतु कड़ाईकर निर्देशित किया गया।

54 लीटर अवैध शराब जप्त

शहडोल। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक द्वारा शहडोल जिले में शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर सभी थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिये गए थे। जिसके पालन में बीते दिवस अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध थाना प्रभारियों द्वारा कार्यवाही कर 09 थानों पर दबिश देकर कुल 54 लीटर कच्ची महुआ जत्ती की गई।

मनमानी जिम्मेदारों ने मुंद रखी है आँख, शायद किसी बड़ी घटना का कर रहे इंतजार

धड़ल्ले से हो रहा प्रतिबंधित दवाईयों का व्यापार



विजय मत, शहडोल।
जिले में कुछ ऐसे दवाइयां हैं जिसका उपयोग असांजिक तत्व के लोग नशे के लिए करते हैं, इन दवाइयों को डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लोगों को देना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मेडिकल स्टोर वाले नकली और नशीली दवाइयां भी बेच रहे हैं। ग्रामीण अंचल में भी बेधडक नशीली दवा एवं मादक पदार्थों का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। इसकी शिकायत जिम्मेदारों से कई बार ग्रामीणों ने की बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस नशीली दवा एवं मादक पदार्थों की जाल में ग्रामीण फंस गये हैं। इस समस्या की शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की गई लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मेडिकल स्टोर से होता नशीली दवा का विक्रय
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में स्थित मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं का बेधडक विक्रय हो रहा है। कई बार जिम्मेदारों से ग्रामीणों ने शिकायत की बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि मेडिकल स्टोर से कफ सिरप कोरेक्स के अलावा नशीली टैबलेट का भी व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं को गांव तक पहुंचाया जाता है। जिस पर अंकुश लगाने के लिए कई बार जिम्मेदारों से कहा गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

निर्धारित गाइड लाइन का नहीं हो रहा पालन
कई मेडिकल स्टोर संचालक शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। नियम विरुद्ध तरीके से मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले संचालकों को जिम्मेदार विभाग का खुला संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि धड़ल्ले से अवैध तरीके से काम हो रहा और औषधि प्रशासन विभाग अपने कार्यालय तक ही सिमटा हुआ है। अफसर इस अवैध कार्रवाई को मौन स्वीकृति दिए हुए हैं, यही कारण है कि अफसर मेडिकल स्टोर की ओर झांकते तक नहीं।

नशीले पदार्थों का हो रहा व्यापार
ग्रामीणों ने बताया है कि नशीली दवा के साथ मादक पदार्थों का भी बेधडक विक्रय हो रहा है। आरोप है कि ग्रामीण के कुछ असांजिक तत्वों द्वारा गांजे की पुर्इया का भी विक्रय हो रहा है। यह गांजे की पुर्इया पान की गुमटियों से नशा का सेवन करने वालों तक जाती है। जिस पर अंकुश नहीं लग रहा है। क्षेत्र में गांजे एवं शराब की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। जिस पर अंकुश नहीं लग रहा है।

संभागीय मुख्यालय के आसपास

वगैर एनओसी के संचालित हो रहे अस्पताल, स्कूल और होटल



विजय मत, शहडोल।
जिले में बढ़ती आबादी के साथ में बाजार विस्तार के साथ स्कूल, होटल व अस्पतालों के साथ-साथ मॉल खुल रहे हैं। लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर अधिकांश भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा

है। बिना फायर एनओसी के होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट, मॉल, हॉस्पिटल, क्लीनिक, पैथोलॉजी, गेस्ट हाउस समेत अन्य बड़े मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन हो रहा है। बाकी बिना फायर विभाग की एनओसी के संचालित हैं। यहां आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। यदि आग पर रख कर होटल को संचालित करा रहे हैं। जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में बने होटलों में मात्र कुछ लोगों के पास फायर की एनओसी है। अगर जिले के अंदर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन को

भी इसकी चिंता नहीं है। हादसा होने पर ही सबको व्यवस्थाओं की याद आती है। जिले के मुख्य मार्गों पर होटल, मॉल, निजी अस्पताल ऐसे हैं, जोकि डॉ मंजिला भवन में संचालित हो रहे हैं। इनमें आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं है। मुख्य मार्गों पर संचालित भवनों में फायर टैंडर पहुंच सकता है। लेकिन जिनका संचालन संकरी गलियों में है। पार्किंग समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया। जिला प्रशासन ने आवेदनों पर नक्शा पास कर दिया मगर मानकों को ध्यान नहीं रखा।

सरकारी दफ्तरों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के बाद फायर स्टेशन से उक्त भवनों की एनओसी लेनी पड़ती है। इसके साथ वर्ष के बाद उक्त एनओसी को रिन्यू करवाना आवश्यक है।

यह है एनओसी के लिए आवश्यक

भवन मालिकों को एनओसी लेने से पहले आग आग सुरक्षा के इंतजामों का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है। जिसमें पानी का टैंक, पाइप फिटिंग, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, बेसमेंट में कार पार्किंग ब्रांड पाइप, प्रत्येक फ्लोर में इंटरकॉम सिस्टम, अग्नि शमन यंत्र आदि का ब्यौरा प्रस्तुत कर एनओसी प्राप्त करनी होती है।

क्या कहता है नियम

नियमों के अनुसार अधिक ऊंचाई के भवनों, सरकारी व निजी स्कूलों, अस्पतालों सहित होटलों व बड़े मॉल,

दगना कुप्रथा रोकने एक्शन प्लान तैयार करें अधिकारी: आयुक्त

हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के परीक्षा परिणाम अपेक्षित न आने पर जताई नाराजगी



विजय मत, शहडोल।

कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने अधिकारियों को गेहूँ उपाजर्न केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं तथा गेहूँ उपाजर्न केन्द्रों में किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गेहूँ उपाजर्न केन्द्रों से परिवहन के कार्य में लगी एजेंसियों से चर्चा करें तथा उपाजर्न केन्द्रों से गेहूँ का परिवहन तेजी से कराएं। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी उपाजर्न केन्द्रों में किसानों को राशि का भुगतान समय सीमा में सुनिश्चित कराएं। कमिश्नर ने उमरिया जिले में परिवहन का कार्य कम होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देशित किया कि उपाजर्न केन्द्रों से गेहूँ के परिवहन का कार्य तेजी से किया जाए। कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद मंगलवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में कमिश्नर ने दगना प्रथा को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास को देते हुए कहा कि दगना प्रथा को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाकर परिणाम मूलक कार्य किए जाएं। कमिश्नर ने कहा कि दगना प्रथा को रोकने के लिए हमारा लक्ष्य छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर केन्द्रित होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सतत परीक्षण एवं पर्यवेक्षक अहम भूमिका निभाएं। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी केन्द्रों का सतत भ्रमण करें, आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा दी जा रही संदर्भ सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाएं। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए हैं कि वे आंगनबाड़ी केन्द्रों की आकस्मिक निरीक्षण करे तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में अव्यवस्था पाये जाने पर जवाबदेह कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शहडोल संभाग से दगना प्रथा समूल रूप से समाप्त हों इसके समन्वित प्रयास होने चाहिए इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की भी भूमिका तय होनी चाहिए। कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भी निर्देश दिए

हैं कि वे दगना प्रथा समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान लोगों से संपर्क स्थापित करें तथा दगना प्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करें। बैठक में कमिश्नर ने शहडोल संभाग में शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में अनुपूर जिले को छोड़कर शेष जिलों का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि उमरिया जिले एवं शहडोल जिले का परीक्षा परिणाम किन कारणों से संतोषजनक नहीं है इसकी संयुक्त संचालक शिक्षा समीक्षा करें तथा जो प्राचाय शैक्षणिक गतिविधियों में उदाशीलता दिखा रहे हैं ऐसे प्राचायों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने खरीब सीजन में कृषि आदानों की तैयारियों की भी समीक्षा की। कमिश्नर द्वारा समयावधि पत्रों की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री मंगल सिंह कनेश, उपायुक्त राजेश सिंह निमिषा पाण्डेय, उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती उषा सिंह, संयुक्त संचालक शिक्षा सहदेव सिंह मरावी, संयुक्त संचालक कृषि जेएस पेन्द्राम, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग, एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



चोरी गई 27 बाईकों सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

विजय मत, शहडोल।
कोतवाली पुलिस ने जिले के अलग-अलग स्थानों से चोरी हुई कई मोटर सायकिलों को एक साथ बरामद करने में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। कोतवाली पुलिस ने चोरी की कुल 27 मोटर सायकिलों को बरामद कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा मोटर सायकिल चोरी के आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया जिसमें एक आरोपी को चिन्हित कर उसकी पता-तलाश की गई जो आरोपी राजेश सिंह निवासी ग्राम दैरन थाना सीधी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शहडोल से बाईक चोरी कर उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर चोरी की कार्य में लगा हुआ था। पुलिस द्वारा इसके साथ सलिस अन्य 3 आरोपियों पारस दास निवासी छोग, रवि कुशवाहा निवासी ग्राम दैरन थाना सीधी एवं राजेश मीर निवासी ग्राम दैरन थाना सीधी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 27 मोटर सायकिल कुल कीमती लगभग 25,00,000/- रुपये को बरामद कर जप्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश सिंह पिता स्व. बुधसेन सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम दैरन पोस्ट दैरन थाना सीधी जिला शहडोल (म.प्र.), पारस दास पिता स्व. गुलाब दास उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट कोटाडोल थाना कोटाडोल जिला एम.सी.बी. (छत्तीसगढ़), रवि कुशवाहा पिता बृजेन्द्र नाथ कुशवाहा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम दैरन थाना सीधी जिला शहडोल (म.प्र.), राजेश मीर पिता मिटाई लाल मीर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम दैरन थाना सीधी जिला शहडोल (म.प्र.) शामिल हैं।

विकित्सालय में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने नियुक्त हुए अधिकारी

विजय मत, शहडोल।
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर संभागीय मुख्यालय शहडोल स्थित शासकीय कुशाभाऊ ठाकरे जिला विकित्सालय शहडोल में आम नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचालित विभिन्न सेवाओं, स्थापित यूनिट की दिवसवार जांच हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जारी आदेश के अनुसार दिन रविवार हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहडोल राजेश जैन, सोमवार हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट सोहागपुर, अरविन्द शाह, मंगलवार हेतु संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग, बुधवार हेतु डिप्टी कलेक्टर, दीपक मण्डवी, गुरुवार हेतु डिप्टी कलेक्टर सुशी अर्चना मिश्रा, शुक्रवार हेतु डिप्टी कलेक्टर भागीरथी लहरे,

शनिवार हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अंतोनिया एका वानखेडे की ड्यूटी लगाई गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त अधिकारीगण निर्धारित दिवस को शासकीय कुशाभाऊ ठाकरे जिला विकित्सालय शहडोल में मरीजों के लिए संचालित सेवाओं स्थापित विभिन्न केयर यूनिट ओपीडी, आपातकालीन चिकित्सा, बर्न यूनिट, एस्पनसीयू, महिला वार्ड, प्रसूति वार्ड, ब्लड यूनिट, चिकित्सकों की उपस्थिति, आईसीयू वार्ड, ट्रामा यूनिट, सिकल सेल एनीमिया यूनिट, सर्जिकल वार्ड, आई वार्ड, टीवी वार्ड, आयुष्मान कक्ष, चाइल्ड वैक्सीनेशन कक्ष, एन. आर.सी. वार्ड, निःशुल्क दवा वितरण की स्थिति प्राइवेट वार्ड, साफ-सफाई इत्यादि का निरीक्षण समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे।

पं.शंभूनाथ विवि में पर्यावरण दिवस पर आयोजित हुये कार्यक्रम

पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने दी गई जानकारीयें

विजय मत, शहडोल।

पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में अध्यक्ष एम द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों एवं भूगोल परिषद द्वारा पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रजाति के पौधे जिनमें ऐरेका पाम, रब, सोन ऑफ इंडिया, इफन बीजिया, स्पाइडर प्लांट, लेपर्ड लिली, डैसिना, सिधोनियम, सेफेडोरा, फरन, होस्टा, लिनी ऑफ द वेल्सी, बैरनबोएट, विनका माइनर आदि विभाग में उपलब्ध कराये। पर्यावरण संरक्षण में इन पौधों का महत्व गुणवत्ता व उपयोगिता की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने पौधों के रखरखाव एवं संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव



प्रो आशीष तिवारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को अब तक हुए नुकसान को पूरा करने के लिए सामूहिक जागरूकता एवं भागीदारी आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण एक संकल्प और समर्पण का मुद्दा है। हम सभी को इसमें योगदान देना और अपने व्यवहार में पर्यावरणीय सुधार लाना होगा। इस कड़ी में छात्रों की इस पहल को उन्होंने सराहना की। भूगोल विभाग की अध्यक्ष प्रो सुनीता बाथरे ने कहा कि पर्यावरण चेतना का अंग और विस्तार है इसके बिना हमारे अस्तित्व पर संकट है। कार्यक्रम का संचालन डॉ मुनीश सिंह नेगी एवं आभार प्रदर्शन डॉ संजय शिवा ने किया। इस अवसर पर डॉ ज्योति सिंह, डॉ जितेंद्र सेन, दिलीप मिश्रा, अजय सिंह पटेल, दीपेश पारस, कुवर्न बहादुर सिंह, अशोक कोल एवं भूगोल परिषद की अध्यक्ष संध्या सिंह तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

न्यूज़ इन शॉर्ट

राहतगढ़ के पास रोड़ पर पलटी गाड़ी, गाड़ी चालक हुआ गंभीर घायल



विजय मत, ब्यूरो, सागर। आज दोपहर बजे भोपाल डायल इंडेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सागर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि राहतगढ़ के पास रोड़ पर वाहन पलट गया है जिसमें सिर्फ एक वाहन चलने वाला व्यक्ति ही था जो गंभीर रूप से घायल है सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम सागर से राहतगढ़ थाने में तैनात एक आर व्ही को तत्काल मौके पर भेजा गया जहाँ के हालात देखकर एक आर व्ही में मौजूद आरथक और पायलट विक्रांत सिंह ठाकुर द्वारा घायल व्यक्ति को तुरन्त से बिना देर किए डायल इंडेड वाहन में बिनाकर अस्पताल राहतगढ़ में भर्ती करवाया गया डायल इंडेड के द्वारा घायल व्यक्ति के परिजनों को भी सूचना दी गई है जो राहतगढ़ पहुंच गए हैं डायल इंडेड कंट्रोल रूम सागर एवं एकआर व्ही वाहन राहतगढ़ में तैनात आरथक एवं पायलट विक्रांत सिंह ठाकुर की तत्परतापूर्वक कार्यवाही के कारण उक्त घायल की जान बच सकी परिजनों द्वारा पुलिस का बहुत धन्यवाद किया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की आज होगी विशाल आम सभा

विजय मत, ब्यूरो, बीना। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन



यादव की आज महावीर चौराहे पर सुबह 11:00 बजे एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे पूर्व विधायक महेश राय ने गानगी अंचल में जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की आम सभा को सुनने के लिए लोगों को आम सभा के लिए प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को माजपा खिमनारा मंडल के गाम बगहरी, जई बस्ती, बसाही टांडा में सागर लोकसभा क्षेत्र से माजपा प्रत्याशी श्रीमती संवैट लता वाचस्पे के समर्थन में पूर्व विधायक महेश राय, पूर्व जिला मजदारी संजय बापट सहित माजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया।

पूर्व हवलदार के बेटे ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान

भोपाल। शहर के नीलबड़ क्षेत्र में रहने वाले पूर्व प्रधान आरथक के 40 वर्षीय बेटे अजय शर्मा ने मकदान चौकी के पास जहर खा लिया। घटना परिवार शरा की है। तबीयत बिगड़ती देख राब्तियों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मृतक के कब्जे से सुसाइड नोट नहीं मिला है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। रातीबड थाना प्रमारी मनेजण पदवा ने बताया कि नीलबड़ इलाके की सुख सागर कालोनी में रहने वाले अजय शर्मा (40) प्राण्ट डीलिंग का काम करते थे। उनके पिता राम सेवक शर्मा पुलिस विभाग में प्रधान आरथक थे। बाद में किसी प्रकरण में पुलिस सेवा से पृथक हो गए थे। रविवार की रात करीब दस बजे अजय अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में मकदान चौकी के पास उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। राब्तियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे बेसुख हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए हर्मीदिया अस्पताल भेज दिया। सुसाइड नोट नहीं मिलने से कारण फिलहाल खुत्कुटी की वजह सामने नहीं आ पाई है।

नौकरी छूटने के बाद बन गया चोर, वाहन चुराने से लेकर मोबाइल भी लूटे

भोपाल। अयोध्या नगर पुलिस ने दो बढमाशों भी सेवट्टर 100 कार्टर थाना पीपलानी विवासी 20 वर्षीय सुवर्ण जाट और रामलीला मैदान पीपलानी निवासी 26 वर्षीय निखिल शर्मा को गिरफ्तार किया है। इसमें निखिल बीकाना पास है और एक कर्मी में नौकरी में कर रहा था। उसे नौकरी जाने के बाद वह अपने पेट्टर साथी के साथ मिलकर चोर बन गया और उसने वाहन चोरी, सूते गजानन में सेकमाटी और मोबाइल लूटने की घटनाएं की। आरोपित पुताई का काम तलाश करने के बहाने कालोनियों में घुसकर चोरी की चैकी करते थे। दोनों आरोपितों के पास से इंडोर से चोरी किए दो पहिया वाहन, मोबाइल और सूते गजानन से चोरी के आभूषण समेत समेत करीब साढ़े पांच लाख रुपये का माल बरामद किया है।

खास-खबर स्वच्छता बढ़ाने और ईंधन संरक्षण के लिए डिजाइन किया गया

मैनिट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का जतन, छात्रावास में बायोगैस डाइजेस्टर स्थापित

विजय मत, भोपाल शहर में स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के ऊर्जा केंद्र ने हास्टल नंबर आठ में बायोगैस डाइजेस्टर को सफलतापूर्वक स्थापित करके पर्यावरण अनुकूलता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। मैनिट के निदेशक डा. केके शुक्ला के मार्गदर्शन में यह एक महत्वपूर्ण पहल हुई है।

ऊर्जा केंद्र के विभागाध्यक्ष डा. प्रशांत बरेदार और सहायक प्राध्यापक डा. गौरव द्विवेदी और होस्टल वाइज डा. टिकेंद्र नाथ वर्मा के मार्गदर्शन में परियोजना को साकार किया गया। तकनीकी सहायक राजकुमार दीक्षित एवं रिसर्च स्कालर राहुल कुमार और उनकी टीम ने स्थापना की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। इसमें जमीनी स्तर पर 103 बाय 15 माप का आधार बनाया शामिल था, जिसमें रसोई 30 फीट की दूरी पर स्थित थी। स्वच्छता बढ़ाने और ईंधन संरक्षण के लिए डिजाइन किया गया बायोगैस डाइजेस्टर खाद्य अपशिष्ट और गोबर से प्रतिदिन पांच किलोग्राम तक बायोगैस का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। प्रो प्रशांत बरेदार ने पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के मैनिट के दृष्टिकोण के साथ इस पहल को रेखांकित किया।

मासिक स्वर्च में बचत होगी
डा. गौरव द्विवेदी और डा. टिकेंद्र



नाथ वर्मा ने बायोगैस डाइजेस्टर की लागत और प्रभावशीलता का अध्ययन कर पाया कि इसके माध्यम से मासिक खर्चों को काफी कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक छात्रावास के मेस में आमतौर पर प्रतिदिन 60 किलोग्राम गैस की खपत होती है। इस हिसाब से लगभग पांच लाख रुपये प्रति माह खर्च आता है। बायोगैस डाइजेस्टर की स्थापना के माध्यम से हम पर्याप्त बचत कर सकते हैं। टीम का लक्ष्य लागत कम करना तथा अन्य संस्थानों और छात्रावासों तक इस तकनीक की पहुंच बढ़ाना है। उनका इरादा बायोगैस डाइजेस्टर के कार्यान्वयन को अन्य छात्रावासों और पूरे मैनिट परिसर में विस्तारित करने का है, जिससे संस्थान के पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

सजगता से सेवाकाल में जिम्मेदारी निभाई है हमारे साथियों ने कहां अविनाश शर्मा ने

ऊर्जावान बन अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे 1999 बैच के सब इंस्पेक्टर्स

» डीएसपी और एडिशनल एसपी गेट टू ग्रेडर विजय मत, ब्यूरो, संत नगर

भोपाल पुलिस महकमे में 1999 में भर्ती हुए और आज सभी अपने अपने मुकाम पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में जिम्मेदारियां निभा रहे डीएसपी और एडिशनल एसपी ने अपने बैचमेट्स के साथ भोपाल में पदस्थ रहे वर्तमान में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने सफल सेवाकाल के 25 वर्ष पूर्ण पर री -- यूनिवर्सन की। इस दौरान भोपाल में



पदस्थ एसपी अविनाश शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी साथियों के साथ सजगता से ये सेवाकाल में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसी प्रकार

शासन के प्रति और आम जनमानस के लिए संदेव तत्पर रहे, हम सभी में सेवा भावना का पूरी ऊर्जा के साथ संचार बना रहे ऐसी मंशा है। इस आयोजन में सभी ने एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दी साथ ही भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करने की सलाह दी। जिससे सभी ऊर्जावान बन अपने कर्तव्य का पालन कर सकें।

इस आयोजन के दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी वल्लभ भवन अविनाश शर्मा (सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा) ने बताया कि हमारे

साथियों ने जितनी मेहनत लगन से अपना कर्तव्य निभाया है ये एक मिसाल है। अविनाश ने कहा कि मैं सभी से आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह अपना कर्तव्य निभाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भोपाल में पदस्थ डीएसपी राजेश शर्मा, जयदीप सूद, अनिरुद्ध मिश्रा, हरीओमदीक्षित, एसपी डेनियल जोसफ, एसपी वल्लभ सैयाम, देवेंद्र शर्मा, योगेंद्र सिसोदिया, संजय शुक्ला, मारुत दुबे, पुरषोत्तम भदौरिया जीआरपी टी आई सुधीर अरजरिया आदि मौजूद रहे।

रेरा के पास मंजूरी के लिए भेजी फाइल, यह नगर निगम का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर ननि बनाएगा 15 मंजिला आवासीय इमारत, 120 करोड़ रुपये आएगी लागत

विजय मत, भोपाल शहर में सस्ते और किरायाती मकान बनाने वाला नगर निगम भी अब महंगे अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहा है। मप्र हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर नगर निगम पहली बार 15 मंजिला हाईराइज बिल्डिंग बनाने जा रहा है। हाउसिंग फार आल के तहत यह निगम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर टीएंडसीपी से अनुमति मिल गई है। अब फाइल रैरा में पंजीयन के लिए भेजी गई है। इसके वापस आते ही रिक्वेरा टाउन के पास रिक्त भूमि पर 15 मंजिला इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह नगर निगम का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। इसमें रहवासियों को 61 लाख रुपये में फोर बीएचके और एक करोड़ रुपये में फोर बीएचके फ्लैट मिलेगा। इसके निर्माण पर करीब 120 करोड़ रुपये लागत आएगी।



इस योजना के तहत होगा निर्माण

बता दें कि अब तक हाउसिंग फार आल (एएएएए) के तहत स्लम और नान स्लम वालों के लिए ही आवास बन रहे हैं। एएएएए प्रोजेक्ट को लोग सबसे डी वाले मकानों के रूप में ही देखते हैं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को नगर निगम कमर्शियल रूप देने जा रहा है। संभवतः देशभर में यह अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसमें सिर्फ दो फ्लैटों वाली रैरी है, पहली थी बीएचके और दूसरी फोर बीएचके है। यानी इसमें फ्लैट लेने की आम लोग हिम्मत नहीं कर सकते।

फैक्ट फाइल

- जी प्लस 15 मंजिला होगी इमारत
- 120 श्री बीएचके और 120 फोर बीएचके फ्लैट होंगे
- श्री बीएचके की कीमत 61 लाख, फोर बीएचके एक करोड़।
- प्रस्तावित स्थल से रानी कमलापति स्टेशन की दूरी 4.8 किमी।
- राजाभोज एयरपोर्ट से 15 और आइएसवीटी से 6 किमी दूर।

इनका कहना है

रिवेरा टाउन के पास हाउसिंग फार आल के तहत 15 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर टीएंडसीपी से अनुमति मिल गई है। रैरा से अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

■ **हरेंद्र नारायण, आयुक्त, भोपाल नगर निगम**

केसरवानी महिला सभा ने मतदाता जागरूकता के लिए चलाया अभियान

विजय मत, ब्यूरो, सागर केसरवानी महिला सभा के तत्वाधान में मतदान जागरूकता दिवस के रूप में जागरूकता दिवस कार्यक्रम केसरी सदन में आयोजित की गई। इस दौरान चुनाव मतदान करने की महिलाओं को शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसका विषय था मतदान करना जरूरी क्यों इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विनिता केसरवानी ने कहा की, हम सब की अहम जिम्मेदारी है मतदान एक व्यक्ति का अधिकार भी है और कर्तव्य भी अगर हम महत्वपूर्ण काम को महत्वहीन समझने की गलती की तो एक गलत और महत्वहीन प्रत्याशी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पूर्व अध्यक्ष आशा जी ने कहा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत का संविधान हर उस इंसान को मतदान करने का अधिकार देता है इसलिए सभी मतदान करें।

जिला अध्यक्ष प्रीति केसरवानी ने कहा कि अपने मत का सही प्रयोग करें सही प्रतिनिधि का



चुनाव कर सकते हैं। तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास भी होगा। सचिव संस्था केसरवानी ने कहा कि, लोभ, लालच से दूर रहकर सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। कोसा अध्यक्ष पूजा केसरवानी ने कहा कि, बुजुर्ग महिला युवा और दिव्यांग बड़ चढ़कर मतदान करें। निशा बलराम ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार उसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए अपने मत से हम देश और देशवासी के हितों की रक्षा करने वाली सरकार बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। और मतदान करने का संकल्प लिया। अहिल्या केसरवानी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

उपभोक्ताओं को लगा दिया 6 फीसदी का करंट

विजय मत, भोपाल

जब भी कोई चुनाव होता है तो सभी को उम्मीद रहती है कि सरकार कम से कम बिजली की दरें तो नहीं बढ़ाएगी। 18वीं लोकसभा के चुनाव के देखते हुए मप्र सरकार ने बिजली की दरें तो बढ़ने नहीं दी। लेकिन बिजली कंपनियों ने नए वित्त वर्ष 2024-2025 के पहले महीने में ही बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा दिया है। 2 महीने तक फ्यूल एंड पावर पर्वेस एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएस) नहीं लगाने के बाद अब अगले महीने के बिल के लिए इसे 5.24 प्रतिशत तय कर दिया गया है। अप्रैल से लागू नए टैरिफ के साथ गर्मियों में बढ़ी खपत और इसी माह से 5.24 फीसदी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी बिल में जोड़ा जाएगा।

मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के चीफ

बिजली कंपनियों की कारस्तानी



जनरल मैनेजर (आरएम) शैलेंद्र सक्सेना ने इसके आदेश जारी किए हैं। उपभोक्ताओं के यहां मई माह में पहुंचने वाले बिलों में ये चार्ज नहीं लगाया गया था। जिससे लोगों को राहत मिली हुई थी। 150 यूनिट तक खपत वाले बिलों में इस चार्ज का कोई असर नहीं होगा। लेकिन उससे ज्यादा खपत वाले बिलों पर चार्ज लगाने का सीधा असर पड़ेगा।

हर महीने तय होता है

एफपीपीएस
फ्यूल एंड पावर पर्वेस एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएस) को बिजली कंपनी हर महीने तय करती है। कंपनी द्वारा बिजली उत्पादन एवं अन्य खर्चों के अनुसार इसे तय किया जाता है। ये व्यवस्था पिछले वर्ष अप्रैल से ही लागू की गई है। इससे पहले हर तीन महीने में फ्यूल कॉस्ट चार्ज तय किया जाता था। जिसे विद्युत नियामक आयोग तय करता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में लागू हुए एफपीपीएस के मामले में आयोग का कोई दखल नहीं बचा है फ्यूल कॉस्ट बिजली उत्पादन में लागने वाले ईंधन और उस माह बिजली उत्पादन में खर्च का अंतर है। विद्युत कंपनियां हर तीन माह में इसे लागू करती हैं। ऐसे में अप्रैल 2024 से 5.24 प्रतिशत का एडजस्टमेंट लागू किया जाएगा। जिसका असर मई माह के बिल में नजर आएगा। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट हर तीन माह में होता है, ऐसे में बिजली बिल में मनगनी से बढ़ोतरी का खतरा बिजली कंपनियों का मिल गया है। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने मार्च में बिजली टैरिफ में 0.07 फीसदी का मामूली बढ़ोतरी की थी, लेकिन जनक 150 यूनिट का ह्रास इसके कर दिया। यानि सारे उपभोक्ताओं का अब हर महीने में ही बिल बढ़ेगा, जिससे बिल में कम से कम दो फीसदी तक बढ़ोतरी की स्थिति है।

जागरूक है हर मतदाता, मतदान कर कर्तव्य निभाता

विजय मत, ब्यूरो, खरई

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अधिक से अधिक मतदान हो इस हेतु अनेकों मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सहित मतदाता प्रेरक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इसी क्रम में आज निकाय क्षेत्र में आज विकास खंड स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा चुनाव 2024 सागर के आदेशानुसार स्वीप प्लान अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, रवीश श्रीवास्तव एसडीएम सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं सीएमओ नगर पालिका परिषद खुरई दुर्गेश सिंह ठाकुर मतदाता रैली में शामिल हुए शासकीय पं.के.सी.शर्मा उल्हास विद्यालय एवं तक्षशिला हायर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र छात्राएं नगर भ्रमण करते हुए तक्षशिला कार्यालय प्रांगण में मानव श्रृंखला



बनाकर समापन किया गया। मतदाता जागरूकता रैली में छात्र छात्राएं शिक्षकों सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए, मतदाता जागरूकता रैली समापन उपरांत प्राचार्य रविकांत असाठी ने रैली में शामिल सभी सदस्यों को मतदान अवश्य करने/कराने की शपथ दिलाई...!! लोकसभा चुनाव स्वीप प्लान नोडल अधिकारी डॉ.विनोद राय ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में हर वर्ग के मतदाता

मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, कि वे एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए अपने मतदाधिकार के उपयोग के अतिरिक्त, अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, मित्रों को भी मतदान दिवस 7 मई को अपने अपने बूथ केंद्रों पर जाकर अपने मतदान करने के लिए प्रेरित करें, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकतंत्र बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें...स्वीप प्लान गतिविधियों के प्रभारी डॉ.विनोद राय एवं प्राचार्य लखन सिंह ठाकुर, नीलेश मोघे तक्षशिला हायर सेकेंडरी विद्यालय प्राचार्य शक्तिनिका स्टाफ एवं नगर पालिका के कर्मचारी/अधिकारीगण समस्त टीम सहित स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

संस्थापक
स्व. श्री रामसिपाही शुवल

विघटनकारी नहीं संगठनकारी
है भाजपा का एजेंडा

चुनाव में एजेंडा हर कोई अपने अनुसार सेट कर रहा है जब और दलों द्वारा इससे भी खतरनाक एजेंडा हो तो किसी एक पार्टी पर उँगली नहीं उठाया जाना चाहिए व्यापक अर्थ में साम्प्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति गहरा लगाव। साम्प्रदायिकता एक विचारधारा है, जो समुदाय को एकजुट करने के लिए, समुदाय के भीतर के विवादों को दबाती है और अन्य समुदायों के खिलाफ उस समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है। इस तरह, यह रूढ़िवादी सिद्धांतों, असहिष्णुता और अन्य धर्मों से घृणा को बढ़ावा देती है और इस प्रकार, समाज और देश को विभाजित करती है। साम्प्रदायिकता, भारतीय संदर्भ में, किन्हीं दो बिल्कुल भिन्न समूहों के बीच धार्मिक मतभेदों की घटना के रूप में सबसे अधिक माना जाता है, जो अक्सर तनाव और यहां तक कि उनके बीच दंगा भी करवा देता है। साम्प्रदायिकता एक धार्मिक समूह के खिलाफ रोजगार या शिक्षा जैसे मामलों में भेदभाव से ज्यादा है। भारत में, साम्प्रदायिकता तब उत्पन्न होती है जब दो समुदायों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानता के कारण और कुछ रियायतों की मांग के लिए धर्म का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। साम्प्रदायिकता धर्म में राजनीतिक व्यापार के रूप में होती है। यह एक विचारधारा है जिस पर साम्प्रदायिक राजनीति आधारित है और साम्प्रदायिक हिंसा साम्प्रदायिक विचारधारा का ही अनुमानित परिणाम है। साम्प्रदायिकता अनिवार्य रूप से हिंसा की ओर ले जाती है क्योंकि यह पारस्परिक धार्मिक घृणा पर आधारित है। यह घटना एक साम्प्रदायिक संगठन और एक धार्मिक संगठन के बीच अंतर की ओर ले जाती है। जब सभी दल उसी विचारधारा पर चल रहे हैं तो किसी पर साम्प्रदायिक होने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है जब भारत का पहले का इतिहास देखने पर ए ज्ञात होता है कट्टरपंथी ताकतों को सह ना देना यदि भाजपा साम्प्रदायिक होती तो सभी उनके पर्व का छुड़ी बन्द कर देती और हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देती लेकिन ऐसा नहीं किया है इतना जरूर किया आतंकवाद पर लगाम दिया और अब कहीं आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं और ना ही रेल में बम ब्लास्ट, भारत को हमेशा जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए लेकिन एक दल ऐसा भी है जो तोड़ने की कोशिश लगातार कर रहा है कुछ नहीं बहुत से ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो भारत के जितने पर मायूस हो जाते भविष्य की तरफ देखें किस तरह एक वर्ग डीम 2047 पर इस्लामिक देश बनाने की साजिश रच रहा है अतः हमेशा हमें भारत माँ को अपनी माँ की तरह समझना है पार्टियों को नहीं जो भी भारत माता की जय और बन्दे मातरम बोलेंगा वही अपनी भारतीय होने का प्रमाण देगा।



किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने का प्रमुख भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ही होता है। मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है। लेकिन भारत का श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। हमारे देश में मजदूरों का शोषण आज भी जारी है। समय बीतने के साथ मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक तबके में अब कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी मजदूरों के उत्साह का कम कर दिया है। अब मजदूर दिवस इनके लिए सिर्फ कागजी रस्म बनकर रह गया है।



आखिर कब तक मजबूर रहेगा मजदूर

रमेश सराफ धनोरा

श्रमिक अपना श्रम बेचकर न्यूनतम वेतन प्राप्त करता है। यही कारण है कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसलिए यह दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए है। इस प्रकार, यह समाज में उनके योगदान की सराहना करने और उसे पहचानने का एक विशेष दिन है। भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य उस दिन मजदूरों की भलाई के लिए काम करने व मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना होता है। मगर आज तक तो कहीं ऐसा हो नहीं पाया है। मजदूर दिवस दुनिया के सभी कामगारों, श्रमिकों को समर्पित होता है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 की थीम है सामाजिक न्याय और सभी के लिए सम्यक कार्य। इसके अलावा भी कई बिंदुओं को रखा गया है। इस थीम का उद्देश्य है मजदूरों की गरिमा का ख्याल रखना और उन्हें शांतिपूर्ण कामकाजी वातावरण प्रदान करना। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है। उद्योगपति खुद को मालिक समझने की बजाय अपने-आप को ट्रस्टी समझे। मगर ऐसा होता नहीं है। मालिक आज भी मालिक बने हुये हैं। मजदूर सिर्फ मजबूर होकर रह गया है। इसी कारण भारत में मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है। हमारे देश की सरकार भी मजदूर हितों के लिए बहुत बातें करती है। बहुत सी योजनाएँ व कानून बनाती है। मगर जब उनको अमलीजामा पहनाने का समय आता है तो सब इधर-उधर ताकने लग जाते हैं। मजदूर फिर बेचारा मजबूर बनकर रह जाता है। गुरु नानक देव जी ने भी अपने समय में किसानों, मजदूरों और कामगारों के हक में आवाज उठाई थी। गुरु नानक देव जी ने 'काम करना, नाम जपना, बांट छकना और दसबंध निकालना का संदेश दिया था। गरीब मजदूर और कामगार का विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए मनुमुख से गुरुमुख तक की यात्रा करने का संदेश दिया था। मजदूर एक ऐसा शब्द है जिसके बोलने में ही मजबूरी झलकती है। सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बर्हाल स्थिति में है। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ मजदूरों की स्थिति में सुधार हो पाया है। दुनिया के सभी देशों की सरकार मजदूरों के हित के लिए बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करती हैं मगर जब उनकी भलाई के लिए कुछ करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाती है। इसीलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। भारत में एक मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में एक मई 1923 को मद्रास दिवस के तौर पर मनाया शुरू किया गया था। इस की शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगारवेलु चेट्टयार ने शुरू की थी। भारत में मद्रास के हार्दिकोट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक संकल्प के पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में



1 मई मजदूर दिवस पर विशेष

भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाये और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाये। वर्तमान में भारत समेत लगभग 80 मुल्कों में पहली मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के मजदूरों को न तो मालिकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और ना ही अन्य वांछित सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जहां ना उनके रहने की कोई सही व्यवस्था होती है ही उनको कोई ढ़ा का काम मिल पाता है। मगर आर्थिक कमजोरी के चलते शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग जैसे जैसे कर वहां अपना गुजर-बसर करते हैं। बड़े शहरों में झोंपड़ पट्टी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां रहने वाले लोगों को कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करता है। इसको देखने की न तो सरकार को फुर्सत है ना ही किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को शौचालय जाने के लिए भी घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। झोपड़ पट्टी बस्तियों में ना रोशनी की सुविधा रहती है। ना पीने को साफ पानी मिलता है और ना ही स्वच्छ वातावरण। शहर के किसी गंदे नाले के आसपास बसने वाली झोपड़ पट्टियों में रहने वाले गरीब तबके के मजदूर कैसा नारकीय जीवन गुजारते हैं। उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मगर इसको अपनी नियति मान कर पूरी मेहनत से अपने मालिकों के यहां काम करने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों के मन में जरा भी सहानुभूति के भाव नहीं रहते हैं। उनसे 12-12 घंटे लगातार काम करवाया जाता है। घंटो धूप में खड़े रहकर बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वाले मजदूरों को एक छप्पर तक नसीब नहीं हो पाता है। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा काई प्रताड़ित व उपेक्षित है तो वो मजदूर वर्ग है। मजदूरों की सुनने वाला देश में कोई नहीं है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर हर वक इस बात की तलवार लटकती रहती है कि ना जाने कब मालिक उनकी छतनी कर काम से हटा दे। कारखानों में कार्यरत मजदूरों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है। मजबूरी में मजदूर कारखाने के मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। कारखानों में श्रम विभाग के मापदण्डों के अनुसार किसी भी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं। कई कारखानों में तो मजदूरों से खतरनाक काम करवाया जाता है जिस कारण उनको कई प्रकार की बिमारियां लग जाती हैं। कारखानों में मजदूरों को पसीम चिकित्सा सुविधा, पीने का साफ पानी, विश्राम की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवायी जाती है। मालिकों द्वारा निरंतर मजदूरों का शोषण किया जाता है। मगर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये बनी मजदूर यूनियनों को मजदूरों की बजाय मालिकों की ज्यादा चिंता रहती है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

पुलिस से घिरा हुआ देख खुद को गोली मारी



सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर, 1888 को हुआ था। जब वे दो वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। माता ने बड़ी कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में प्रफुल्ल का स्वामी



1 मई 1908 सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी का बलिदान

दिनचर्या का अध्ययन करने के बाद 30 अप्रैल 1908 को उसे मारने की योजना बनी। योजना थी कि जब वह यूरोपियन क्लब से बाहर निकल कर बगी में बैठे तब हमला बोला जाये। संभवतः किंग्सफोर्ड को इसका भी संकेत मिल गया होगा। उसने लौटते समय बगी बदल ली। बम फेंका गया। किन्तु उसकी बगी में दो यूरोपियन महिलाएँ बैठी थीं जो कि पिंले कैनेडी नामक एडवोकेट की पत्नी और बेटी थी, वे मारी गईं। क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारने में सफलता समझ कर वे घटना स्थल से भाग निकले। प्रफुल्ल ने समस्तीपुर में अपने एक परिचित यहाँ पहुँच कर कपड़े बदले और टिकट खरीद कर ट्रेन में बैठ गए। दुर्भाग्यवश उसी डिब्बे में पुलिस सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी बैठा था। वह प्रफुल्ल चाकी को पहचानता था। बम कांड की सूचना चारों ओर फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर को प्रफुल्ल पर कुछ संदेह हुआ। उसने चुपचाप अगले स्टेशन पर सूचना भेजकर चाकी को गिरफ्तार करने का प्रबंध कर लिया। पर स्टेशन आते ही ज्यों ही प्रफुल्ल को गिरफ्तार करना चाहा वे बच निकलने के लिए दौड़ पड़े। पर जब देखा कि वे चारों ओर से घिर गए हैं तो उन्होंने अपनी रिवाल्वर से अपने ऊपर स्वयं को फायर करके मोकामा के पास प्राणहुति दे दी। यह घटना 1 मई 1908 की है। यह अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा है कि सिपाही ने मृत देह शीश काटा और अगले दिन अदालत में कहा हुआ सिर प्रस्तुत किया

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए: निर्मला देशपांडे

निधि सिंह

सन 1947, लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा हुआ। भारतियों को आजादी हासिल हुई। अंग्रेज तो चले गए पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा भारतीय समाज जो रूढ़िवादिता, अशिक्षा, गरीबी, जाति व्यवस्था के संकट से जूझ रहा था और जिससे निजाद पाने के लिए अभी एक और लंबी लड़ाई लड़नी थी। उस दौर में कई चिंतक और बुद्धिवादी लोग न्याय और समता आधारित समाज के निर्माण के लिए सतत संघर्ष कर रहे थे। इन्ही लोगों में से एक थी गांधी विचारक और बिनोवा भावे की मानस पुत्री डॉक्टर निर्मला देशपांडे। दीदी के नाम से विख्यात निर्मला देशपांडे गांधीवादी विचारधारा एवं आदर्शों की कट्टर समर्थक होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। 19 अक्टूबर 1929 को नागपुर में विमला और पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर जन्मी निर्मला जी का बचपन साहित्यिक परिवेश में बीता। पिता साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मराठी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। निर्मला देशपांडे नागपुर से ही राजनीति विज्ञान में एम ए के पढ़ाई के बाद वहीं के मारिस कॉलेज में प्रोफेसर बन गईं। दलितों, वंचितों और उत्पीड़ितों के साथ हो रहे भेदभाव से दीदी अक्सर व्याकुल हो जाती और अंततः एक दिन सुख सुविधाओं को त्याग कर आजीवन अविवाहित रहने के संकल्प के साथ वह बिनोवा भावे के पवनार आश्रम में आ गईं। 1952 में दीदी बिनोवा भावे के भूमिदान आंदोलन से जुड़ी और तकरिबन 40 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल हुईं। इस यात्रा में भूमिहीनों की दुर्दशा ने निर्मला जी को व्यस्थागत उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। भूमिदान आंदोलन के तहत गांधी जी के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा दान की गई लाखों एकड़ जमीन भूमिहीनों और गरीबों में वितरित की गई। महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए 1932

1 मई निर्मला देशपांडे जी को पुण्यतिथि विशेष

में स्थापित हरिजन सेवक संघ से दीदी बतौर अध्यक्ष जुड़ी और लंबे समय तक उन्होंने वहीं अपनी सेवा दी। बिनोवा भावे ने अपने गुरु महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए शांति सेना का गठन किया जिसकी कमांडर निर्मला जी को नियुक्त किया गया। बेबाक बोलने वाली और माओवादियों को अपना दोस्त बताने वाली निर्मला देशपांडे एक समर्पित गांधीवादी थीं, शायद इसीलिए उनके लिए नक्सलियों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना मुश्किल नहीं था। यह जानते हुए भी कि नक्सलियों के विरोध का तरीका गांधी विचारधारा से परे था बावजूद इसके निर्मला जी ने नक्सलियों पर बल प्रयोग का विरोध किया। प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर एस एम सुब्बा राव के शब्दों में ...निर्मला देशपांडे का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने अपने विचारों एवं कार्यों से गांधी और बिनोवा को जोड़ने का कार्य किया। गांधी विचार के मूल तत्व संवाद को इन्होंने 'गोली नहीं बोली चाहिए' का रूप देकर विपरीत माहौल में भी शांति सद्भाव कायम किया। समय समय पर उत्पीड़ितों अल्पसंख्यकों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास जारी रहा पर निर्मला देशपांडे एक ऐसी कार्यकर्ता थीं जिनहोंने अपना सम्पूर्ण जीवन आदिवासियों, उत्पीड़ितों, महिला ससक्तिकरण और साम्प्रदायिक सोहार्द के लिए समर्पित कर दिया। 1984 में विभिन्न गांधीवादी संस्थानों और कार्यकर्ताओं को साथ जोड़कर बिनोवा भावे के मार्गदर्शन में दीदी ने अखिल भारत रचनात्मक समाज की स्थापना की जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक एवं साम्प्रदायिक शांति और भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना था। अखिल भारतीय रचनात्मक समाज दीदी द्वारा शुरू किया गया एक वैचारिक आंदोलन है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

दैनिक पंचांग

01 मई 2024 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

बुधवार 2024 वर्ष का 122 वां दिन
दिशाशूल उत्तर ऋतु ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2081 शक संवत् 1946
मास वैशाख (दक्षिण भारत में चैत्र)
पक्ष कृष्ण तिथि सप्तमी 05.47 बजे
तदनन्तर अष्टमी 04.02 बजे रात्र को समाप्त। नक्षत्र श्रवण 03.11 बजे रात्र को समाप्त। योग शुभ 20.01 बजे को समाप्त। करण बव 05.47 बजे, बालव 16.57 बजे तदनन्तर कौलव 04.02 बजे रात्र को समाप्त। चन्द्रायु 22.2 घण्टे
रवि क्रांति उत्तर 15° 10'
सूर्य उत्तरायन कलि अहरण 1871966
जुलियन दिन 2460431.5
कलियुग संवत् 5125
कल्पांशु संवत् 1972949123
सृष्टि गृहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2550
हिजरी सन् 1445 महीना सव्वाल
तारीख 21 विशेष कालाष्ट्रमी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, महाराष्ट्र, गुजरात स्थापना दिवस।

ग्रह स्थिति लगनारंभ समय
सूर्य मेष में वृष 06.16 बजे से
चंद्र मकर में मिथुन 08.14 बजे से
मंगल मीन में कर्क 10.27 बजे से
बुध मीन में सिंह 12.44 बजे से
मेघ मेष में कन्या 14.56 बजे से
शुक्र मेष में तुला 17.06 बजे से
शनि कुंभ में वृश्चिक 19.21 बजे से
राहु मीन में धनु 21.37 बजे से
केतु कन्या में मकर 23.42 बजे से

राहुकाल 12.00 से 1.30 बजे तक

दिन का चौघड़िया
लाभ 05.54 से 07.22 बजे तक
अमृत 07.22 से 08.51 बजे तक
काल 08.15 से 10.19 बजे तक
शुभ 10.19 से 11.47 बजे तक
रोग 11.47 से 01.16 बजे तक
उद्वेग 01.16 से 02.44 बजे तक
चर 02.44 से 04.12 बजे तक
लाभ 04.12 से 05.41 बजे तक

रात का चौघड़िया
उद्वेग 05.41 से 07.12 बजे तक
शुभ 07.12 से 08.44 बजे तक
अमृत 08.44 से 10.16 बजे तक
चर 10.16 से 11.47 बजे तक
रोग 11.47 से 01.19 बजे तक
काल 01.19 से 02.51 बजे तक
लाभ 02.51 से 04.23 बजे तक
उद्वेग 04.23 से 05.54 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ - शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

विनम्रता का पाठ

पंडित विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे। दूर-दूर तक उनकी चर्चा होती थी। उनके पड़ोस में एक अशिक्षित व्यक्ति रहते थे-रामसेवक। वे अत्यंत सज्जन थे और लोगों की खूब मदद किया करते थे। पंडित जी रामसेवक को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उनसे दूर ही रहते थे। एक दिन पंडित जी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी एक राहगीर उभर आया और मोहल्ले के एक दुकानदार से पूछने लगा-भाई यह बत्ताओ कि पंडित विद्याभूषण जी का मकान कौन सा है। यह सुनकर पंडित जी की उत्सुकता बढ़ी। वह सोचने लगे कि आखिर यह कौन है जो उनके घर का पता पूछ रहा है। तभी दुकानदार ने उस राहगीर से कहा-मुझे तो किसी पंडित जी के बारे में नहीं मालूम। तब राहगीर ने कहा-व्या रामसेवक जी का घर जानते हो? दुकानदार ने

हंसकर कहा-अरे भाई उन्हें कौन नहीं जानता। वे बड़े भले आदमी हैं। फिर उसने हाथ दिखाकर कहा- वो रहा रामसेवक जी का घर। फिर दुकानदार ने राहगीर से सवाल किया-लेकिन आपको काम किससे है? पंडित जी से या रामसेवक जी से? राहगीर कहने लगा-भाई काम तो मुझे रामसेवक जी से है। पर उन्होंने ही बताया था कि उनका मकान पंडित विद्याभूषण जी के पास है। यह सुनकर पंडित जी ग्लानि से भर उठे। सोचने लगे कि उन्होंने हमेशा ही रामसेवक को अपने से हीन समझा और उसकी उपेक्षा की पर रामसेवक कितना विनम्र है। वह खुद बहुत प्रसिद्ध होते हुए भी उन्हें ज्यादा महत्व देता है। उसी रात पंडित जी रामसेवक के घर गए और उससे क्षमायाचना की। फिर दोनों गहरे मित्र बन गए।

शब्द पहेली - 7993

1	2	3	4	5	6
	7		8		
9	10				11
		12		13	
14				15	
		16		17	
18					20
	21	22		23	24
25					

बाएँ से दाएँ

- धनुर्धर-2,2
- तरुणी, नाजनीन-4
- संतुष्ट होना-5
- टेलीग्राम-2
- महोदय (अंग्रेजी)-2
- कटि, कमरिया-3
- फटकार, भत्सना-4
- वतन, स्वेदश-4
- पार होना, पार करना-3
- विद्रोही-2
- परीब, निर्धन-2
- लोचदार, लचकदार-5
- पारंपरिक, पुरातन-4
- कृष्ण भक्त एक मुस्लिम कवि-4

ऊपर से नीचे

- शीघ्रता, जल्दी-3
- मूल्य, कीमत-2
- जनता, आम आदमी-2
- किनारा, कोरा-2
- इंकार, मनाही-2
- पानी गर्म करने का यंत्र-3
- श्रम, बहम-3
- साधु, संन्यासी-3,2
- मुलायम सिंह की राजनीतिक पार्टी-5
- कपड़े की दीवार-3
- जिल्हा, जिल्हा-3
- रसदार, रसभरा-3
- काणन, वजह-3
- नेत्र, लोचन-3
- बुरी आदत-2
- एक पड़ोसी देश-2

शब्द पहेली - 7992 का हल

श	र	व	स	ह	ल
व	र	व	स	ह	ल
खि	प्र	व	ध	न	त
ल	व	ग	न	त	ह
न	र	ध	स	ह	ल
स	र	व	स	ह	ल
ग	ज	न	ह	व	य
न	र	म	ज	ह	ल

सूडोकु नवताल- 6778 ☆☆☆☆ सरल

7	8	6	1	5	2
	9		8		3
1		6	9	7	
	3	8	2	1	
2	7	5		6	3
		5	7	2	8
		9	7	4	6
8			2		5
4	2		5	9	1

सूडोकु नवताल- 6777 का हल

2	9	5	3	1	4	6	8	7
3	6	1	2	8	7	4	9	5
8	4	7	5	9	6	3	2	1
5	7	4	1	6	2	8	3	9
1	3	6	9	4	8	5	7	2
9	8	2	7	3	5	1	4	6
6	2	8	4	7	1	9	5	3
4	5	3	6	2	9	7	1	8
7	1	9	8	5	3	2	6	4

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
■ पहेली का केवल एक ही हल है।

न्यूज़ इन शॉर्ट



कलेक्टर कार्यालय में मेधावी विद्यार्थियों का किया गया सम्मान

अनूपपुर / पढ़ाई के लिए की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई जीवन का आधार है। पढ़ाई में लगन और समर्पण से विद्यार्थी अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए की गई मेहनत परीक्षा के परिणाम से प्रकट होती है। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। गौतम का एक भी बच्चा उच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रम तय करता है, तो वह ब्राह्मण एम्प्लेस के रूप में दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है। उकाशय के विचार कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कलेक्टर रिश्त नर्माद सभाघर में आयोजित कक्षा 5 वीं, 8 वीं, 10 वीं व 12 वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों तथा बॉर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सहायक कलेक्टर महिपाल सिंह गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. धुर्वे, जनजातीय व शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक, शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कलेक्टर एच के मार्गदर्शन में विद्यार्थी मोटिवेट होकर विद्यार्थी पढ़ाई और पढ़ाई के मूलमंत्र को अपनाकर अपने अभिभावक को सुनकर बनाने के लिए अवसर रहे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से गांव, नगर व जिला गौरान्वित होता है तथा विद्यार्थी के अभिभावक, माता-पिता व शिक्षक भी गौरान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने कैरियर को बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें मोटिवेट करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने सभी सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर एच के मार्गदर्शन में विद्यार्थी मोटिवेट होकर और बेहतर प्रदर्शन के लिए तत्पर होंगे। इस अवसर पर कक्षा पांचवीं के 10, कक्षा आठवीं के दस, कक्षा दसवीं के 4 व कक्षा बारहवीं के 9 मेधावी विद्यार्थियों तथा उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यों को प्रथम गुच्छ, प्रथम पत्र, प्रथम विद्यार्थी एवं मेडल पहनकर कलेक्टर, जिला, सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी ने सम्मानित किया।

खेलवृत्ति हेतु आवेदन 31 मई तक आमंत्रित

उमरिया। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभागाव खिलाड़ियों से वर्ष 2024 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्पर्धा पदक विजेता खिलाड़ी को 10 हजार रुपये, रजत पदक विजेता खिलाड़ी को 8 हजार रुपये तथा कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 6 हजार रुपये खेलवृत्ति राशि प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2023 की खेलवृत्ति हेतु आवेदन 31 मई 2024 तक स्वीकार किए जा सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु आवेदन संबंधित जिले के कार्यलय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नरेंद्र सिंह राजपूत तकनीकी प्रशिक्षक व्यवस्था, अनिल शर्मा तकनीकी प्रशिक्षक वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग से संपर्क किया जा सकता है।

बैठक

समयावधि पत्रों का समय-सीमा में हो निराकरण : कलेक्टर

विजय मत, अनूपपुर।

एक माह से ऊपर के समयावधि प्रकरणों का निराकरण सभी विभाग के जिला प्रमुख सुनिश्चित करें। लम्बे समय तक लंबित टीएल प्रकरणों के निराकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उकाशय के निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने नर्मदा सभागार में आयोजित टीएल बैठक में समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सहायक कलेक्टर महिपाल सिंह गुर्जर, एसडीएम अनूपपुर दीपशिखा भगत सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण वचुंअल माध्यम से विकासखण्ड पुष्पराजग?, कोतमा एवं जैतहरी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पात्रता पत्रों के सेचुरेण के संबंध में 15 मई तक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ व नगरीय निकायों के सीएमओ को पात्रता पत्रों के कार्य में ध्यान देकर इस कार्य को पूर्ण किए जाने के संबंध में कहा है। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के बस्ती विकास के विद्युतीकरण कार्य का समीक्षा करते हुए एक सप्ताह में कार्य की पूर्णता के निर्देश दिए। बैठक में वन विभाग से संबंधित लंबित टीएल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आपत्ति एवं अनुमति प्रकरणों का तत्पर से निराकरण के निर्देश दिए। खुले एवं अनुपयोगी बोरवेलों की समीक्षा-बैठक में निजी, खुले एवं अनुपयोगी बोरवेलों के सर्वे कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कहीं भी बरतवेल नहीं पाए जाने चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने समीक्षा के दौरान एसडीएम, जनपद सीईओ व नगरीय निकायों के सीएमओ को इस

विभिन्न कार्यों व योजनाओं की कलेक्टर ने समीक्षा कर दिए निर्देश



संबंध में संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर कमियों की करें पूर्ति-कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को स्वयं व अपने अधीनस्थ खण्ड स्तरीय अमले के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में किसी भी तरह की कमी पाई जाती है, तो उन कमियों को एसडीएम दूर कराएं। उन्होंने बैठक में महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ को सतत रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण करने, आंगनबाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा पूरक पोषण आहार (टीएचआर) के सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने डीपीओ को व्यवस्थाओं के सुधार तथा सतत मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को राजस्व एवं अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारियों से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने तथा कमियों की पूर्ति के संबंध में निर्देश दिए। जर्जर शाला भवनों के डिमेंटल के निर्देश-बैठक में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित जर्जर शाला भवनों के विनिश्चिकरण (डिमेंटल)

कैम्प 01 से 31 मई तक के आयोजन को सुव्यवस्थित सम्पन्न कराने तथा स्वल्पहार भोजन स्वास्थ्य आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

15 दिवस में छात्रवृत्ति अपडेशन कार्य पूर्ण करें-बैठक में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति अपडेशन कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इस कार्य को 15 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में देवारण्य स्कीम अंतर्गत लेमनग्रास की खेती, पीएम जन-मन अंतर्गत ग्राम पत्रों में निर्मित आवास में पेयजल की आपूर्ति के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने पीएचई के कार्यपालन यंत्री, एसडीएम तथा जनपद सीईओ को समन्वय से समस्या का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अनूपपुर में नवीन बस स्टैंड के लिए स्थान का चिन्हांकन करें-समयावधि बैठक में जिला मुख्यालय अनूपपुर में नवीन बस स्टैंड की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल व भूमि के चिन्हांकन के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एसडीएम से समन्वय कर भूमि संबंधी समस्या के निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में नगरीय क्षेत्र अनूपपुर के जिला खनिज प्रतिष्ठान मद (डीएमएफ) अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य के कार्य पूर्ण कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नगरीय निकायों के सीएमओ प्रतिदिन नगर का भ्रमण कर सफा-सफाई, बिजली, पानी आदि व्यवस्थाओं की नियमित मॉनीटरिंग करें तथा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने विभागीय जिला प्रमुख अधिकारियों को कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक में चिन्हित समस्याओं के निराकरण का पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कोतमा में व्यापारी और खिलाड़ी सक्रिय

आईपीएल की हर एक गेंद पर लग रहा करोड़ों का सट्टा

विजय मत, अनूपपुर।

आईपीएल की शुरुआत के साथ ही सट्टा बाजार गर्मा गया है। कोतमा में रोजाना करोड़ों का सट्टा लगता है। दृष्टक में सट्टे से सट्टेबाजों की लाखों रुपये की कमाई होती है। तो वहीं पुलिस की भी जेब भरती है। कोतमा में व्यापारी और खिलाड़ी इससे काफी परेशान हैं।कोतमा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच शुरू होने के साथ ही सट्टा बाजार भी गर्मा गया है। कोतमा में भी रोज करोड़ों रुपये का सट्टा आईपीएल मैच में लग रहा है। आईपीएल की यह सट्टेबाजी सट्टा बुक करने वालों के लिए लाखों रुपये कमाई का जरिया है तो पुलिस और बुकी चलाने वालों की जेब भरती है।

मैच शुरू होते ही बुक होता है भाव -शाम को मैच शुरू होते ही सट्टारिए भाव बुक कराने के लिए



फोन करने लगते हैं। मैच के दौरान एक बुकी के पास करोड़ों रुपये का सट्टा बुक होता है। मैच के बाद दूसरे दिन सुबह बुकी के आदमी गाड़ी लेकर सट्टा के पैसे वसूलने निकलता है। जीतने वालों को पैसा पहुंचाया जाता है। वसूली में अपराधिक छवि के लोग -शहर में

आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले कई एजेंट ऐसे हैं, जिनका अपराधी इतिहास या फिर ऐसे लोगों से कनेक्शन है। जब एजेंट अपराधी किस्म के लोगों के जरिये ही पैसा वसूली करते हैं और बड़े एजेंट तक पहुंचते हैं। पूरा नेटवर्क लैपटॉप, मोबाइल, वाइस रिकॉर्डर समेत अन्य पर चलता है। हालांकि, अब ऑनलाइन साइट पर कई ऐसे ऐप आ गये हैं जिसके जरिये बुकी के एजेंट सट्टा लगाने वालों से रकम लेकर उनकी नयी आईडी बनाते हैं और फिर उस आईडी में रकम डालते हैं। कोई दो हजार रुपये से अपनी आईडी खुलवाता है, तो कोई 50 हजार से। यह सब ऑनलाइन किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बाजार में घूम-घूम कर मोटी रकम की वसूली करने कर रहे हैं।

पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में

शहर, नगरीय क्षेत्र से लेकर गांव-गांव क्रिकेट सट्टे व सूदखोरी का जाल बिछा कर बैठे सट्टा के बुकियों के पास प्रत्येक मैच पर लाखों रुपये के दंड लगा रहे हैं। इस समय जिले में क्रिकेट सट्टे के कारोबार में शहर सबसे ऊपर है। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को न होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। धरातल पर नगर में चल रहे इस अवैध कारोबार की जानकारी पुलिस तक अवश्य पहुंच जाती है। हालांकि खानापूर्ति करते हुए पुलिस कभी कभार छोटे सट्टारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है परंतु बड़े सट्टारियों तक नहीं पहुंचने के कारण ये कारोबार निरंतर चलता है। शहर में इन दिनों प्रतिदिन क्रिकेट मैच पर करोड़ों रूपए के सट्टे का कारोबार हो रहा है। कम समय में अधिक कमाई के लालच में बड़ी संख्या में युवा सट्टा कारोबार के जाल में फंस कर बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं।

काला हीरा कोयला को लेकर रामनगर ओसियम में करोड़ों का घोटाला

रोड सेल के माध्यम से उच्च क्वालिटी के कोयले में भ्रष्टाचार, अधिकारियों ने लगाया चूना

हसदेव क्षेत्र के रामनगर ओसियम में संचालित रोड सेल के माध्यम से कोयले की गड़बड़ी कर करोड़ों का घोटाला किया जा चुका है। यहां पर जो ग्रेट कोयले को भेजना होता है, यहां पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी मिली भगत कर उच्च क्वालिटी का कोयला भेज अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अगर विजिलेंस टीम जांच करें तो सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। साथ ही एसईसीएल को हो रहे करोड़ों के नुकसान से भी बचाया जा सकता है।

विजय मत, अनूपपुर।

जिले के सबसे अंतिम छोर पर स्थित रामनगर ओसियम में कोयले के खेल में यहां पर पदस्थ सबप्रिया- मैनेजर रोड सेल इंजाज से लेकर छोटे से बड़े कर्मचारी संलिप्त है। यहां पर सभी अपने जेब भरने के लिए एसईसीएल में लूट मचा रखे है अगर सही समय पर एसईसीएल की जांच एजेंसी यहां पर जांच नहीं की तो निश्चित ही करोड़ों का नुकसान एसईसीएल को उठाना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार



रामनगर ओसियम में दो ग्रेड का कोयला निकलता है यहां पर जी 7 व जी 8 ग्रेड का कोयले की बिन्नी रोड सेल के माध्यम से की जाती है। लेकिन यहां पर कॉर्लर में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी व कोयले के व्यापारी से साथ मिल कर उच्च क्वालिटी का कोयला भेज कालरी को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए जी 7 ग्रेड का कोयला 25000 टन तो जी 8 ग्रेड का कोयला 4000 टन होते हैं। लेकिन यहां पर जी 8 ग्रेड का कोयले की

जगह कोयले की व्यापारी से सांठगांठ कर जी 7 ग्रेड के कोयले की लोडिंग ट्रेकों में कर दी जाती है। कुल मिलाकर 1 टन कोयले में 1000 का नुकसान यहां पर पदस्थ अधिकारी एसईसीएल को कर रहे हैं। मुनाफा कोयले के व्यापारियों को हो रहा है। इसके पवज में कॉर्लरी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को अच्छा खासा मुनाफा भी कोयला व्यापारी के द्वारा कराया जाता है। बताया गया कि उच्च क्वालिटी कोयले

के लिए यहां पर बगैर अनुमति मजदूरों को रख उनसे कोयले की छटनी करारक व्यापारियों को भेजने का काम जोर-जोर से जारी है। जबकि बाहरी व्यक्ति ,अनाधिकृत व्यक्ति ,जब तक प्रबंधन से अनुमति प्राप्त किसी भी व्यक्ति को ना हो वह परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर किसके इशारे पर मजदूर जाकर कोयले की छटनी कर वाहनों में लोड करते हैं सारा खेल खबर के माध्यम से दिखाया जा चुका है ,इसके बावजूद एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। अगर ऐसा ही हाल रहा तो निश्चित ही एसईसीएल को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यहां पर पदस्थ मैनेजर दीपक बाटिया कई वर्षों से पदस्थ है आखिर इनका तबादला क्यों नहीं हुआ। बताया गया कि कोयले के खेल में इनकी इनकी भूमिका हम होता है। हालांकि एसईसीएल में बैठे जांच टीम को इनकी संपत्ति की भी जांच करनी चाहिए जिससे पूरा मामला खुलकर सामने आ सके।

मप्र राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग विधा वर्ष के लिए प्रतिभा चयन का आयोजन होगा

विजय मत, उमरिया।

मप्र राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल द्वारा वर्ष 2024- 25 हेतु वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग विधा का प्रतिभा चयन कार्यक्रम 22 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है जो आगामी 23 मई तक संचालित होगा। उमरिया जिले में 2 मई को कार्यक्रम आयोजित होगा। जिले के योग्य खिलाड़ी वाटर

स्पोर्ट्स सेलिंग हेतु निर्धारित तिथि पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल स्थानीय निवासी पत्र की छायाप्रति के साथ लायेंगे। प्रतिभा चयन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की शारीरिक उंचाई निर्धारित की गई है। 12 वर्ष की आयु वर्ग में बालक की उंचाई 154सेमी, बालिका की उंचाई 164सेमी, 11 आयु वर्ग में बालक की

उंचाई 149 सेमी, बालिका की उंचाई 158 सेमी, 10 वर्ष आयु वर्ग में बालक की उंचाई 144 सेमी, बालिका की उंचाई 151 सेमी, 9 वर्ष आयु वर्ग में बालक की उंचाई 139 सेमी, बालिका की उंचाई 146 सेमी तथा 8 वर्ष की आयु वर्ग में बालक की उंचाई की 134 सेमी तथा बालिका की उंचाई 130 सेमी निर्धारित की गई है।

कलेक्टर कान्प्रेस का आयोजन 8 मई को

उमरिया 30 अप्रैल। शहडोल संगम शहडोल की अध्यक्षता में 8 मई को कलेक्टर कान्प्रेस का आयोजन किया गया है। कलेक्टर कान्प्रेस में प्रातः 11 बजे से वन राजस्व मुदत, दोपहर 2.30 बजे से आरसीएमएस अंतर्गत राजस्व न्यायालयों की समीक्षा, दोपहर 3.30 बजे से राजस्व दफ्तरी के प्रवर्ति की समीक्षा, सायं 4.30 बजे से कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

बच्चों के भोजन में गड़बड़ी करने वाले समूहों पर करें सख्त कार्यवाही: कलेक्टर

विजय मत, अनूपपुर।

कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मैदानी अमले के साथ आपसी सामंजस्य के बसाकर महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्य करें। इसके लिए आंगनबाड़ी, स्कूल एवं गांवों में सर्वे कर हिताग्रहियों का चिन्हांकन करें, जिससे गंभीर बच्चों का बेहतर इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चा छुटने ना पाए इसका विशेष ध्यान रखें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर को स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिये जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हुए चिन्हांकित बच्चों का एनआरसी के माध्यम से लाभ दिलाए। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ आज कलेक्टर कार्यालय के सोन सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

बैठक में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत, फर्श टूटने, टाइल्स टूटने की भी जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें जल्द मरम्मत करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को यह भी निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का राजस्व एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना मिले। कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी की कमियों को दूर कर आंगनबाड़ी की उपयोगिता बढ़ाएं। बैठक में कलेक्टर ने पूरक पोषण आहार, मातृ वंदना योजना, लाइली लक्ष्मी योजना, पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराए गए बच्चों, अति कुपोषित एवं कुपोषित बच्चों की पहचान विभागीय योजनाओं एवं कार्य की समीक्षा की। बैठक में पाया गया की लाइली लक्ष्मी योजना एवं कुपोषित बच्चों की स्थिति कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ में संतोषजनक नहीं है। जिस पर कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति में सुधार व प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रिक्त पदों के स्थिति के संबंध में भी समीक्षा की। जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 18 सहायक के पद रिक्त हैं। जिस पर कलेक्टर ने अनुभागीय बैठक आयोजित कर शीघ्र विज्ञप्ति जारी कर पद भरने की कार्यवाही के निर्देश दिए।

चंदन के फेसपैक से निखरे रूप



सदियों से चंदन पूजा में इस्तेमाल होता आया है, साथ ही यह सौंदर्य के लिए भी उपयोगी माना जाता है। आखिर यूं ही तो चंदन सा बदन नहीं कहा जाता। सौंदर्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां भी बढ़-चढ़कर अपने उत्पादों में चंदन होने की दावा करती हैं। चंदन की लकड़ी का पाउडर त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। चंदन में हीलिंग के गुण हैं, जो त्वचा को कई परेशानियों से बचाते हैं। गर्मियों में यह आपकी त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। चंदन की लकड़ी अथवा पाउडर से बना फेसपैक त्वचा को बेदाग निखार देता है।



चंदन और दूध
अगर आप अपने चेहरे पर कालि लाना चाहते हैं तो चंदन और दूध का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाए। चंदन के पाउडर में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर लगाए। इस मिश्रण को 20 मिनट तक यूं ही लगा रहने दें और फिर पानी से अच्छी तरह चेहरा धो लें। आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार नजर आएगी। यह मिश्रण रूखी त्वचा वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है।

घर पर बने इन हेयर मास्क से रोकें हेयरफॉल

बालों का गिरना एक समस्या की तरह है जो हर उम्र के लोगों में देखी जाती है। प्रदूषण, खानपान में पौष्टिक तत्वों की कमी, तनाव आदि हमारी दिनचर्या से जुड़ी आदतें ही बालों के गिरने का प्रमुख कारण है। गिरते बालों को रोकने से बचाने के लिए बाजार में कई तरह

के उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी बालों की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन्हें गिरने से रोकने के लिए घर पर ही हेयर मास्क बनाएं और अपने गिरते बालों की समस्या को प्राकृतिक तरीके से रोकें।



अंडे की जर्दी

अंडा खाने और साबुत प्रयोग करने में भी बहुत फायदेमंद है, इसमें प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है जो हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाता है। जबकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एक अंडे की जर्दी और दो चम्मच ग्रीन टी लीजिए, इसका पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों तक इसे अच्छे से लगाएं। 30 मिनट बाद बालों को धो लें, इस मास्क को सप्ताह में कम से कम 3 दिन प्रयोग करें।

प्याज: प्याज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो बालों को गिरने से बचाता है। इसका मास्क बनाने के लिए 3 प्याज और फिटकरी का छोटा टुकड़ा लीजिए। प्याज का रस निकालकर इसमें फिटकरी पीसकर इसमें मिला लें। बालों को अच्छे से धोकर उसे सूखाकर ही यह मास्क लगाएं, इसे पूरी रात बालों में लगा रहने दें, अगर समस्या हो तो बालों में तैलिया लपेट लें। अगली सुबह बालों को अच्छे से धो लें ताकि इसकी बदबू चली जाए। अच्छे परिणाम के लिए इसे सप्ताह में दो बार प्रयोग करें।

केला: एक केला लें और एक अंडे की जर्दी निकाल लें, केले को अच्छी तरह से मसल कर अंडे की जर्दी में डालकर हेयर मास्क तैयार करें। इस मास्क को बालों पर लगाकर 30-40 मिनट के लिए छोड़ दें, हल्के गरम पानी से बालों को धो लें। कुछ ही दिनों में बालों का गिरना कम हो जाएगा।

शहद: एक चम्मच शहद, एक चम्मच रम, एक चम्मच केस्टर तेल, अंडे की जर्दी, विटामिन ए और ई के कैप्सूल को लेकर अच्छे से मिलाकर इसका मास्क तैयार करें। इस मास्क को बालों की जड़ों के साथ पूरे बाल में लगाएं और हल्के गरम तैलिये से बालों को लपेटकर एक घंटे के लिए छोड़ दें। बाल चमक उठेंगे।

ओटमील : एक चम्मच ताजा दूध और एक चम्मच ओटमील लीजिए, इसे मिलाकर हल्का पेस्ट बनाएं। इसे बालों में लगाकर से पहले बालों को अच्छे से कंधी कौजिए, फिर इस मास्क को बालों की जड़ों तक अच्छे से लगाएं। 20 मिनट के बाद बालों को शैंपू लगाकर धो लें। यह बालों के गिरने की समस्या को रोकता है।

बालों को गिरने से बचाने के लिए इन मास्क के अलावा पौष्टिक आहार, जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा हो, नियमित व्यायाम और भरपूर नींद बहुत जरूरी है।

दाग धब्बों की छुट्टी

अगर आप अपने चेहरे से दाग-धब्बे हटाना चाहते हैं, तो इस हवाले से चंदन आपकी काफी मदद कर सकता है। चंदन के पाउडर में अच्छी तरह पिसे हुए बादाम और थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे, बाजुओं और टांगों पर रोजाना लगाया जा सकता है।

ऐसे बनाएं पेस्ट

चंदन कुदरती तौर पर पिपल और एक्ने को भी आसानी से हटा देता है। चंदन और हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। जब यह पेस्ट अच्छी तरह सूख जाए तो इसे पानी से धोकर चेहरा पोंछ लें। इससे न केवल आपके चेहरे को पिपल से छुटकारा मिलेगा बल्कि चेहरे पर नयी चमक भी आएगी। आंखली त्वचा वाले के लिए यह पेस्ट काफी मददगार हो सकता है।



ऐसे बनाएं मास्क

चंदन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यह जलन कम करने में सहायक होता है। चेहरे पर समय के साथ जमा धूल और मैल को हटाने में इसका फेस मास्क बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। चंदन पाउडर में थोड़ा गुलाब का पानी, हल्दी, मलाई और बेसन मिलाकर फेसपैक बनाए। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर थोड़ी देर सूखने दें। थोड़ी देर बाद इस मास्क को हटा लें और चेहरा पानी से धो लें। आपकी त्वचा कोमल हो जाएगी।



फास्ट फूड्स को बनाएं हेल्दी, कंट्रोल रहेगा वजन और दुरुस्त रहेगी सेहत

वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अनियमित जीवनशैली और फास्टफूड माना जाता है। दुनियाभर में लोग वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं। फास्टफूड्स से वजन तेजी से बढ़ता है ये बात सच है। कुछ लोग फास्टफूड के ऐसे दीवाने होते हैं कि वो इसे लाख चाहने के बाद भी नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अगर इसे बनाने के तरीके में थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया जाए तो फास्टफूड को भी हेल्दी बनाया जा सकता है। अगर हम फास्टफूड को हेल्दी तरीके से बनाएं तो इससे हमारा वजन भी कंट्रोल रहेगा और हमें अपना मन भी नहीं मारना पड़ेगा।



पिज्जा

देखा जाए तो फास्ट फूड में ऐसी कई चीजें हैं, जिनसे हमें पोषण मिलता है। जैसे मोमोज में सब्जियां भरने के साथ ही इसे स्टीम से तैयार किया जाता है। इसमें मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह चीज पिज्जा की जगह वेजिटेबल पिज्जा खाया जा सकता है। सैंडविच में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करके भी इसे हेल्दी व टैस्टी बना सकते हैं।

फ्राइड स्प्रउट्स रोल

अंकुरित अनाज या स्प्रउट्स को हरी मिर्च, टमाटर, प्याज के साथ फ्राई कर लें उसके बाद उसे पतली रोटियों में रोल कर लें और तवे पर थोड़े से घी में सेंक लें। यह आपके लिए काफी फायदेमंद है। इसे आप नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं। यह रोल निश्चित रूप से बाजार में मिलने वाले रोल से ज्यादा पोषक व हेल्दी होगा।



पास्ता: अगर आप पास्ता के शौकीन हैं तो बाहर से खाने की बजाय घर पर ही इसे बनाएं। पास्ता बनाते समय उसमें कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, ब्रोकली, खीरा, बंदगोभी या सलाद के पत्ते भी काटकर मिलाएं। यह पास्ता आपके सेहत को कभी बिगड़ने नहीं देगा।
याददाश्त करें मजबूत: एक शोध में सामने आया है कि फास्ट फूड ब्रेन के लिए भी अच्छा है। रिसर्च टीम के मुताबिक, फ्राइड चीजों में पाए जाने वाले केमिकल्स दिमाग को चुस्त रखते हैं। शोध के मुताबिक ट्रांस फैट यानी अनसैचुरेटेड फूड छोड़कर आप फास्ट फूड में कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ग्रील्ड चिकन सैंडविच, बर्गर, नूडल्स और आलू से तैयार फ्राइड चीजें ले सकते हैं, लेकिन वजन कंट्रोल करने के लिए थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए भी देना होगा।

ये बातें याद रखें

सोडा व स्वीट ड्रिंक्स पीने से बचें। लीनर खाएं, लेकिन बिना मयोनीज के। सॉस मीट्स और सब्जियों से तैयार चीजें अधिक खाएं। ग्रील्ड चिकन सैंडविच प्रयोग करें।

होम मेड स्टाइल

TODAY'S Dish

राजगीरा पनीर पराठा



यह पनीर मिश्रण से भरे पराठे अपने आप में ही एक संपूर्ण व्यंजन है। पराठे को टूटने से बचाने के लिए इन्हें हल्के हाथों से थपथपाना न भूलें।

सामग्री

- मिलाकर भरवा मिश्रण बनाने के लिए
- 1 कप मोटा कसा हुआ पनीर
- 2 टी-स्पून बारीक कटी हरी मिर्च
- 1/2 टी-स्पून नींबू का रस
- 1/2 टी-स्पून शक्कर
- 2 टी-स्पून कटा हुआ धनिया
- सेंधा नमक, स्वादअनुसार
- अन्य सामग्री
- 1 कप राजगीरे का आटा
- 1/4 कप उबले, छिले और मसले हुए आलू
- 1/2 टी-स्पून काली, स्वादअनुसार
- बेलने के लिए राजगीरे का आटा
- पकाने के लिए तेल
- परोसने के लिए
- हरी चटनी
- ताजा दही

विधि

भरवा मिश्रण को 6 बराबर हिस्सों में बांटकर एक तरफ रख दें। राजगीरे का आटा, आलू, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक को एक बाउल में डालकर मिलाएं और पानी का प्रयोग कर हल्का नरम आटा गूंध लें। आटे को 6 बराबर हिस्सों में बांटे और प्रत्येक हिस्से को सुखे राजगीरे आटा का प्रयोग कर 75 एमएम व्यास के गोल आकार में बेल लें। भरवा मिश्रण के एक हिस्से को गोल के बीच में रखकर सभी किनारों को बीच में लाकर अच्छे तरह से बंद कर लें। राजगीरे का आटे का प्रयोग कर 150 एमएम व्यास के गोल आकार में दुबारा बेल लें। एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और पराठे को थोड़े से तेल का प्रयोग कर, दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें। बचे हुए आटे और भरवा मिश्रण का प्रयोग कर 5 और पराठे बनाएं। हरी चटनी और ताजे दही के साथ गरमा गरम परोसे।

राशिफल

मेघ	वृषभ	मिथुन
आपको आज सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी। परिवार एवं दायित्वजीवन में सुख-संतोष का अनुभव करेंगे। रोमांस का अनुभव होगा।	मौज-मस्ती और मनोरंजन से भागीदारी में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा मेल-जोल रहेगा। व्यापार एवं नौकरी में आय बढ़ेगी।	आज के दिन सर्वत्र लाभ ही लाभ है। पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी। पत्नी के पीछे खर्च होगा। अविवाहित लोगों के विवाह की संभावना है।
कर्क	सिंह	कन्या
घर में शुभ-प्रसंगों का आयोजन होगा। प्रियजनों का मिलन आनंददायक होगा। उत्तम भोजन और उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी।	आज तन-मन से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। पड़ोसी और भाई-बंधुओं के साथ के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। निर्धारित कार्य पूरे होंगे।	छोटा प्रवास होगा। भाग्यवृद्धि के लिए अक्सर सामने आएगा। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। प्रिय व्यक्ति की निकटता आपको हर्षित करेगा।
तुला	वृश्चिक	धनु
प्रेमपूर्ण संबंध की गहनता का परिचय होगा। आर्थिक लाभ होगा। व्यवसाय में सफलता मिलेगी और धन, मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।	दुविधापूर्ण मानसिक वृत्ति रहेगी। नकारात्मक विचार मन की अस्वस्थता बढ़ाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव होगा।	अनावश्यक खर्च होगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बौद्धिक चर्चा के दौरान विवाद से बचें। प्रवास की संभावना है।
मकर	कुंभ	मीन
नौकरी में भी आपका परिश्रम रंग लाएगा। घर, परिवार और सतानों के मामले में आनंद और संतोष की भावना अनुभव करेंगे।	व्यावसायिक कार्य के संबंध में दौड़-धूप बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और संबंधियों से लाभ होगा।	आज आप अपने आपको अस्वस्थ महसूस करेंगे, परंतु मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। काम करने में उत्साह का अभाव रहेगा।

मयंक यादव फिट हुए, मुम्बई के खिलाफ मैदान में उतरेंगे



नई दिल्ली। लखनऊ सुपरजायंट्स के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव फिटनेस जांच में पास हो गये हैं और एक बार फिर मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। मयंक आज मुम्बई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में भी उतरेंगे। मयंक की वापसी से लखनऊ की गेंदबाजी मजबूत होगी। मयंक ने शुरुआती दो मैच में आक्रामक गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलायी थी। इससे मुम्बई इंडियंस के बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। लखनऊ के गेंदबाजी कोच मोनै मॉर्कल ने कहा कि मयंक ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। ऐसे में लखनऊ को उम्मीद रहेगी कि ये गेंदबाज पहले दो मैचों की तरह ही इस मैच में भी बेहतर गेंदबाजी करेगा।

अकरम की तरह तेजी से ओवर पूरा करते हैं जडेजा: सिद्धू



चेन्नई। पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने नवजोत सिंह सिद्धू अपने बड़बोलपन के लिए जाने जाते हैं। अब सिद्धू ने ऑलराउंडर वसीम अकरम से की है। सिद्धू ने ये बात जडेजा के तेजी से ओवर पूरे करने को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अकरम जल्दी से ओवर पूरा किया करते थे, वैसे ही जडेजा भी तेजी से ओवर पूरा करते हैं। सिद्धू ने कहा जब ओवर पूरा करने की बात आती है तो जडेजा अकरम की तरह तेजी से गेंदबाजी करते हैं। इससे बल्लेबाजों पर दबाव बना रहता है क्योंकि उन्हें आराम का कोई अवसर नहीं मिलता। इसके अलावा सिद्धू ने बल्लेबाज शाहरुख खान को लेकर कहा कि वह प्रतिभाशाली है और पाक के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की तरह गेंद पर प्रहार करता है लेकिन उसे अपना विकेट बचाकर खेलना होगा और प्रदर्शन में निरंतरता दिखानी होगी।

पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम आईसीसी के पास भेजा

भारत सहित सभी टीमों के मैच पाक में ही रखे गये

दुबई, एजेंसी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत सहित सभी टीमों के मैच पाक में ही रखे हैं जबकि भारतीय टीम के वहां जाने की कोई संभावना नहीं है। पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को भी भेजा है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी पाक करेगा और किसी भी टीम के मैच तटस्थ स्थल पर कराने की कोई योजना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के इस नौवें सत्र में शीर्ष 8 एकदिवसीय टीमों शामिल होंगी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत फरवरी और मार्च 2025



में होगी। नकवी ने कहा कि पीसीबी ही इस पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी करना चाहता है। नकवी ने कहा कि, हम पाक में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी चाहते हैं। इसी कारण हमने आईसीसी को कार्यक्रम भेज दिया है। जहां तक सुरक्षा की बात है आईसीसी की टीम ने पाक का दौरा किया था और वह हमारे सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट दिखी है। पीसीबी को उम्मीद है कि भारतीय टीम इसमें शामिल होगी।

हसी ने बताया रूतुराज की सफलता का राज



चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने टीम के कप्तान रूतुराज गायकवाड़ की तारीफ करते हुए कहा है कि उसे पता है कि कब क्या करना है। हसी ने कहा कि रूतुराज गेंदबाजों से एक कदम आगे चलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि किस गेंद को कैसे खेलना है। हसी ने कहा, 'मैं उससे पूछता रहता हूँ कि उसके शानदार प्लेसमेंट का राज क्या है क्योंकि उसे हमेशा फील्डर के बीच में जगह मिल जाती है जिससे गेंद आसानी से सीमा रखा के पार निकल जाती है।' कोच ने कहा, 'वह चालाक बल्लेबाज है। उसे पता है कि किस गेंद पर स्ट्रोक खेलना है और किस पर नहीं। वह स्पिन गेंदों के साथ ही तेज गेंदबाजी का सामना भी आसानी से करता है।

टी-20 वर्ल्डकप के लिए भारतीय टीम का ऐलान शिवम दुबे को जगह, पंत-सैमसन विकेट कीपर गिल और रिंकू सिंह रिजर्व प्लेयर

मुंबई, एजेंसी
अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 मेम्बर्स वाला स्कोड जारी किया है। इसमें 25 मई तक बदलाव किया जा सकता है। आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन और ऋषभ पंत को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में हार्दिक पंड्या के साथ-साथ शिवम दुबे भी चुने गए हैं। शुभमन गिल और रिंकू सिंह मुख्य स्कोड में जगह नहीं बना पाए हैं। ये ट्रेवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनाए गए हैं। टीम इंडिया पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से खेलेगी। टीम का दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को तीसरा मुकाबला अमेरिका और 15 जून को चौथा



मुकाबला कनाडा से होगा। इस बार टी-20 वर्ल्ड कप 2 से 29 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच कनाडा और होम टीम अमेरिका के बीच डलास में होगा। फाइनल मैच 29 जून को वेस्टइंडीज के बारबाडोस शहर में होगा। सुपर-8 और नॉकआउट मैच वेस्टइंडीज में होंगे। टी-20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले 2 से 17 जून तक होंगे। 19 से 24 जून तक सुपर-8 स्टेज के मुकाबले होंगे। फिर 26 जून से नॉकआउट स्टेज शुरू होगा।

आईपीएल 2024: पंजाब पर जीत के इरादे से उतरेगी सीएसके

चेन्नई, एजेंसी
आईपीएल में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी। सीएसके की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में यहाँ लखनऊ सुपरजायंट्स को हराया था जिससे उसके हौंसले बुलंद हैं। टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज लय में हैं जिससे वह अपनी जीत का सिलसिला बनाये रखना चाहेंगी। इस मैच में सीएसके की बल्लेबाजी कप्तान रूतुराज गायकवाड़ के अलावा शिवम दुबे, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र पर रहेगी। रविंद्र अब तक बड़ी पारी नहीं खेल पाये हैं और उनका लक्ष्य इस मैच में जमकर रन बनाना रहेगा। वहीं गेंदबाजी की कप्तान मुस्ताफिजुर रहमान, मथीसा पथिराना आदि पर रहेगी। उसे पंजाब के निचले क्रम के बल्लेबाजों आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह पर



अंकुश लगाना होगा क्योंकि ये दोनो ही आक्रामक बल्लेबाजी कर टीम को जीत दिला देते हैं। सुपरजायंट्स के खिलाफ कप्तान रूतुराज गायकवाड़ ने 98 रनों की शानदार पारी खेली थी जबकि गेंदबाजी में तुषार देशपांडे ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए थे। यहां की पिच गेंदबाजों के लिए सहायक रहती है जिसका लाभ भी सीएसके के गेंदबाज उठाना चाहेंगे। यहां ओस नहीं पड़े तो फिर दूसरी पारी में रन बनाना

कठिन होता है। ऐसे में टॉस की अहम भूमिका रहेगी और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम लाभ में रहेगी हालांकि ओस गिरने पर हालात बदल जाते हैं। इस मैदान पर सीएसके ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाये थे। इससे बावजूद उसने अच्छी गेंदबाजी कर सनराइजर्स को हराया था। ऐसे में पंजाब के लिए चेपाक पर खेलना आसान नहीं रहेगा। पंजाब ने हालांकि इस सत्र में एक बार लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे अधिक रन बनाये हैं जिससे टीम का मनोबल बढ़ा है और वह जीत के लिए पूरी ताकत लगा देगी। पंजाब की बात करें तो टीम की बल्लेबाजी जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह के अलावा शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा पर आधारित रहेगी जबकि गेंदबाजी की कप्तान सैम कुर्रेन, कागिसो रबादा जैसे खिलाड़ियों के पास रहेगी।

किसी खास शैली की नकल न करें पाक खिलाड़ी: गिलेस्पी

लाहौर, एजेंसी
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नये टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी ने टीम के खिलाड़ियों से कहा है कि वे अपनी शैली में बदलाव न करते हुए अपना स्वाभाविक खेल ही खेलें। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे गिलेस्पी के अनुसार किसी खास शैली की नकल उन्हें भारी पड़ सकती है। कोच के अनुसार वह चाहते हैं कि उनके प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने तरीके से ही खेलें। साथ ही कहा कि टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए उन्हें केवल सकारात्मक और आक्रामक रवैया रखना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने गिलेस्पी को आगले दो साल के लिए टीम को कोच बनाया है। वहीं सीमित ओवरों के लिए कोच की कप्तान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज रहे गैरी



कस्टर्न को दी गयी है। कस्टर्न के कोच रहते ही भारत ने साल 2011 में एकदिवसीय विश्व कप जीता था। गिलेस्पी ने कहा, 'मैं बस इतना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस शैली की क्रिकेट खेले जो उनके अनुकूल हो। मेरे लिए यही बात सबसे अहम है। मेरा मानना है कि कुछ ऐसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिये जो आप नहीं हो।' गिलेस्पी ने कहा, 'आप इसे कैसे करते हैं ये आपका ऊपर है। मैं केवल इतना कहूंगा कि सकारात्मक, आक्रामक, मनोरंजक बनें।

बिजनेस

आज से आपकी जेब पर बढ़ जाएगा भार? नए महीने के नए नियम बजट पर डालेंगे असर

नई दिल्ली, एजेंसी
मई 2024 से म्युचुअल फंड निवेशकों और बैंक ग्राहकों से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। नए महीने में कुछ बैंकों के बचत खातों पर लगने वाले शुल्क में इजाफा होगा। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी भुगतान पर सरचार्ज भी लगाने वाले हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। कल से मई महीना शुरू हो



रहा है। नए महीने के साथ वित्तीय जगत से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। ये परिवर्तन सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। मई महीने में सिलेंडर की

कीमतों में बदलाव हो सकता है। म्युचुअल फंड निवेशकों और बैंक ग्राहकों से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। मई महीने में कुछ बैंकों के बचत खातों पर लगने वाले शुल्क में इजाफा होगा। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी भुगतान पर सरचार्ज भी लगाने वाले हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सार्वभूमि के डेडलाइन में भी परिवर्तन हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी पेंमेंट पर लगेगा चार्ज

राज्य बैंक और आईडीएफसी बैंक ने एक मई से क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी भुगतान पर सरचार्ज लगाने का एलान किया है। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, गैस, पानी, इंटरनेट सेवाएं और केबल सर्विसेज से जुड़े पेमेंट यूटिलिटी भुगतान के अंतर्गत आते हैं। अगर यूटिलिटी सेवाओं का भुगतान 15000 रुपये से अधिक है तो यस बैंक उस पर 1 प्रतिशत के सरचार्ज के अलावे जीएसटी भी वसूलेगा। आईडीएफसी बैंक ने 20,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी भुगतान पर 1 रुपये सरचार्ज के साथ जीएसटी चार्ज करने की बात कही है।

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी कीमतों में बदलाव

पेट्रोलियम कंपनियों एच महीने पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के कनेटिविटी व घरेलू सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में संभव है एक मई से इनकी कीमतों में परिवर्तन देखने को मिले। हालांकि इसका एलान 30 अप्रैल की मध्यरात्रि के बाद ही होने की संभावना है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में होने वाले किसी भी बदलाव पर आम आदमी की नजर बनी रहेगी।

म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए जरूरी बदलाव

अगर आप म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक मई 2024 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 30 अप्रैल 2024 के बाद अगर आपके म्युचुअल आवंटन पर लिखा नाम आपके पैन कार्ड पर लिखे नाम के सामान नहीं हुआ तो आपका आवंटन रद्द हो जाएगा।

आईसीआईआई बैंक में होंगे ये बदलाव

1 मई से आईसीआईआई बैंक बचत खाता सेवाओं पर लगने वाले शुल्क में परिवर्तन करेगा। इसमें डेबिट कार्ड पर लगने वाले 200 रुपये तक की सालाना फीस शामिल है। ग्राहकों इलाकों के लिए यह शुल्क 99 रुपये प्रति वर्ष है। चेक बुक की बात करें तो एक वर्ष में 25 तक की शुल्क देनी होगी पर इससे अधिक के लिए बैंक 4 रुपये प्रति चेक का शुल्क वसूल करेगा।

यस बैंक के बचत खातों से जुड़े शुल्क बदलेंगे... यस बैंक ने 1 मई बचत खाता सेवाओं पर लगने वाले शुल्क में बदलाव की घोषणा की है। बैंक ने बचत खातों में अनिवार्य औसत मासिक शेष (एएमवी) से कम होने की स्थिति में अधिकतम शुल्क बढ़ा दिया है। अब बैंक ऐसी स्थिति में 250 रुपये से 1,000 रुपये के बीच चार्ज करेगा। इससे पहले यह शुल्क 250 रुपये से 750 रुपये के बीच था। बचत खाते के प्रकार, बैंक शाखा के स्थान और खाते में कमी की राशि के आधार पर यह शुल्क अलग-अलग होते हैं। आध्यात्मिक धनराशि के कारण आईएसए (इलेक्ट्रॉनिक विलयन सविस्) रिटर्न की स्थिति में बैंक अब पहली बार 500 रुपये का शुल्क लेगा।

जेएनके इंडिया का शेयर 67 प्रतिशत बढ़ा

निफ्टी ने 22,783 का ऑलटाइम हाई बनाया सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 74,482 पर बंद

मुंबई, एजेंसी
शेयर बाजार में आज यानी 30 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ 22,604 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बंद होने से पहले आज कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,783 का ऑल टाइम हाई बनाया। वहीं सेंसेक्स में भी 188 अंक की तेजी रही, ये 74,482 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। M&M के शेयर में आज 4.75 प्रतिशत की तेजी रही। वहीं टूट्टू शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। जेएनके इंडिया की शेयर बाजार में अच्छी एंटी हुई है। इसका शेयर NSE पर 49.63 प्रतिशत प्रीमियम के साथ



621 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं, BSE पर ये 49.39 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 620 रुपए पर लिस्ट हुआ। हालांकि इसके बाद इसके शेयर में और तेजी देखने को मिली, ये हस्वध पर 279.55 रुपए (67.36 प्रतिशत) बढ़कर 695.55 रुपए पर बंद हुआ। कमजोर नतीजों के बाद इंडियन ऑयल का शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा

टूटा। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर में आज 7.80 रुपए (4.41 प्रतिशत) की गिरावट देखने को मिली है। IOCL का शेयर आज 168.95 रुपए पर बंद हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 40 प्रतिशत घटकर 4,837.69 करोड़ रुपए रह गया है। इससे पहले कल यानी 29 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 941 अंक की तेजी के साथ 74,671 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 223 अंक की बढ़त रही। ये 22,643 के स्तर पर बंद हुआ था।

देश में सोने की मांग आठ प्रतिशत बढ़कर 136.6 टन पहुंची

एक साल पहले की समान अवधि में 126.3 टन थी

नई दिल्ली, एजेंसी
भारत की सोने की मांग कीमतों के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बावजूद मजबूत आर्थिक माहौल की वजह से जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर 136.6 टन हो गई। विश्व स्पर्ण परिषद ने यह जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सोने की खरीद से भी मांग में वृद्धि हुई। इस वर्ष जनवरी-मार्च में मूल्य के संदर्भ में भारत की सोने की मांग वार्षिक आधार पर 20 प्रतिशत बढ़कर 75,470 करोड़ रुपये हो गई। इसका कारण मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ तिमाही औसत कीमतों में 11 प्रतिशत की वृद्धि भी है। विश्व स्पर्ण परिषद (डब्ल्यूजीपी) ने मंगलवार को अपनी वैश्विक रिपोर्ट गोल्ड डिमांड ट्रेन्स क्यू 2024 जारी की। इसके अनुसार, भारत की कुल सोने की मांग, जिसमें आभूषण तथा निवेश दोनों शामिल हैं।



इस साल जनवरी-मार्च में बढ़कर 136.6 टन हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 126.3 टन थी। भारत में सोने की कुल मांग में से आभूषणों की मांग चार प्रतिशत बढ़कर 95.5 टन हो गई। कुल निवेश मांग 19 प्रतिशत बढ़कर 41.1 टन हो गई। डब्ल्यूजीपी के भारत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सोने की मांग में वृद्धि भारतीयों के सोने के साथ स्थायी रिश्ते की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि भारत का निरंतर मजबूत वृद्ध आर्थिक परिवेश सोने के आभूषणों की खपत के लिए सहायक रहा, हालांकि मार्च में कीमतें ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुंच गईं।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुनाफा 10 गुना बढ़ा

सियोल। जनवरी-मार्च तिमाही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचालन लाभ 10 गुना होकर 6600 अरब वॉन (4.8 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। यह पिछले साल की समान अवधि में 640 अरब वॉन (46.5 करोड़ डॉलर) था। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि मेमोरी चिप की उंची कीमतों और प्रमुख गैलैक्सी एस24 स्मार्टफोन की मजबूत बिक्री के दम पर कंपनी का राजस्व करीब 13 प्रतिशत बढ़कर 71900 अरब वॉन (52 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गया। एआई चिप की बढ़ती मांग को देखते हुए सैमसंग ने कहा कि उसने इस महीने अपने नवीनतम एचबीएम चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। दूसरी तिमाही में चिप के 12-लेयर संस्करण का उत्पादन शुरू करने की योजना है। सैमसंग ने एक बयान में कहा कि 2024 की दूसरी छमाही में व्यापक आर्थिक रुझानों और भू-राजनीतिक मुद्दों से संबंधित निरंतर अस्थिरता के बावजूद, मुख्य रूप से जनरटिव एआई से जुड़ी मांग के साथ कारोबारी स्थितियां सकारात्मक रहने की उम्मीद है।

रुपया तीन पैसे गिरकर 83.48 डॉलर पर पहुंचा

मुंबई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को रुपया 83.46 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती सौदों के बाद 83.48 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.45 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 105.73 पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी पूंजी के कुछ प्रवाह ने भारतीय मुद्रा की गिरावट को सीमित किया।

हुंडई, किआ ने चीनी कंपनी बायटू से किया करार

सोल। दक्षिण कोरिया की शीर्ष कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर और इसकी अनुभवी कंपनी किआ ने बताया कि उन्होंने कनेक्टिविटी कारों के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए चीन की दिग्गज टेक कंपनी बायटू के साथ करार किया है। दोनों दक्षिण कोरियाई कार निर्माता और बायटू ने पिछले सप्ताह बीजिंग में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत वे कनेक्टिविटी और सेल्फ-ड्राइविंग प्रौद्योगिकियों सहित कई क्षेत्रों में हाथ मिलाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार हुंडई और किआ बीजिंग के बड़ते डेटा नियमों के अनुपालन के लिए बायटू की स्मार्ट क्लाउड क्यूटिंग प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करेंगे।

सिधिया के नाम पीएम मोदी की चिढ़ी, लिखा- जनमानस के कल्याण के प्रति आपके समर्पण का साक्षी हूँ...

विजयमत, गोपाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री और गुना-शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिधिया को पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने लिखा, जनमानस के कल्याण के प्रति आपके समर्पण का साक्षी हूँ। मध्यप्रदेश के गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में सात मई को वोटिंग होगी। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिधिया को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने मंत्री के रूप में सिधिया की उपलब्धियों और क्षेत्र के विकास में योगदान के बारे में लिखा है। खुद सिधिया ने यह पत्र सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सिधिया ने इस पत्र को रामबाण बताया है।



पीएम नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिधिया को भेजे पत्र में लिखा, मेरे साथी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिधिया जी, आपको यह पत्र लिखते हुए आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल से होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप की सहभागिता व आम जनमानस के कल्याण के प्रति आपके समर्पण का मैं स्वयं साक्षी हूँ। ग्वालियर में भव्य एयरपोर्ट का मात्र 16 महीने में निर्माण, क्षेत्र के विकास के प्रति आपकी दूर दृष्टि को दर्शाता है। आपके प्रयासों से आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन तो

आए ही हैं, साथ ही साथ भारत को विश्व पटल पर भी एक सकारात्मक और भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जा रहा है।

गुना में सड़क, बिजली और सिंचाई नेटवर्क को मजबूत करने में आपका काम क्षेत्र के समग्र विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। नागर विमानन मंत्री और इस्पात मंत्री के रूप में राष्ट्र के प्रति आपके योगदान में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ सम्मिलित हैं। ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को घर लाने के लिए किए गए प्रयासों को बहुत सराहना हुई और उन्हें जल्द-से जल्द घर लाने के लिए आपके व्यक्तिगत प्रयत्न भी पूरे मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। युद्ध विश्वास है कि गुना संसदीय निर्वाचन

क्षेत्र की जनता अपना पक्ष देश के समक्ष रखने हेतु एक बार फिट आपका समर्थन करेगी।

पत्र के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं को बीजेपी को वोट देने की अपील की और सिधिया को शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया ने इस पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पत्र पोस्ट कर सिधिया ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के प्रति समर्पित रहूँगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में मतदान वाले लोकसभा क्षेत्रों के प्रेक्षकों से चर्चा कर तैयारियों की समीक्षा की

विजयमत, गोपाल
मतदाता वोट करने मतदान केन्द्रों तक आये, इसके लिये मतदान केन्द्रों में सभी समुचित व्यवस्थायें की जाये। मतदाताओं को हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। मतदान बढ़ाने के लिये रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेक्षक, स्वीप नोडल और पूरी निर्वाचन टीम सभी मिलजुलकर सामूहिक प्रयास करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये तीसरे चरण में मतदान वाले सभी लोकसभा संसदीय एक-एक शब्द भरे लिए प्रेरणादायी हैं। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के प्रति समर्पित रहूँगा।



मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन तथा प्रदेश के मुरैना एवं राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षकों से चर्चा की और सभी तैयारियों की सिलसिलेवार जानकारी ली। कुमार ने कहा कि तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये अतिरिक्त प्रयास किये जाएँ। मतदाताओं से

सीधा सम्पर्क कर उन्हें वोट करने के लिये प्रेरित करें और उनकी सुविधाओं के व्यापक इंतजाम भी करें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने आयोग को अवगत कराया कि प्रदेश में तीसरे चरण में 9 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा है। यहां बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर वोटर् पचीं बांटकर मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनसे वोट करने की अपील की जा रही है। तीसरे चरण के लिये एक मई को और चौथे चरण के लिये 7 मई को सभी मतदान केन्द्रों में चलें बूथ की ओर' अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान व्यापक गतिविधियाँ की जायेंगी।

न्यूज़ इन शॉर्ट

समर्थन मूल्य पर गैहू उपाजर्न कार्य 20 मई तक

विजयमत, गोपाल। जिला आपूर्ति अधिकारी सुशील मीना मालाकार ने खाद, नागरिक आपूर्ति एवं उद्योगों संस्थापन विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गैहू उपाजर्न के लिए जारी संदर्भित नीति की कंडिका अनुसार समर्थन मूल्य पर गैहू उपाजर्न कार्य के लिए गोपाल संभाग में 07 मई नित्य की गई थी नवीन जारी आदेश के अनुसार कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गैहू उपाजर्न की अवधि 20 मई 2024 तक बढ़ाई गई है। अतः गोपाल जिले में समर्थन मूल्य पर गैहू उपाजर्न का कार्य 20 मई तक किया जाएगा।

अमरनाथ यात्रा पर भक्त रामलला की प्रतिमा ले जाएंगे साथ

विजयमत, गोपाल। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 29 जून से शुरू होने जा रही है। गोपाल से जयों की रवानगी का सिलसिला 26 जून से शुरू होगा। ओम शिव भक्ति सेवा मंडल का इस दिवस पहला जय रवाना होगा। उसमें शामिल अनेक यात्री अपने साथ रामलला की छोट्टी-बड़ी कई प्रतिमाएं लेकर जाएंगे, विन्हे बाबा अमरनाथ की गुफा में अर्पित किया जाएगा। यह प्रतिमाएं हबहब अयोध्या में स्थापित रामलला की प्रतिमा जैसी ही होंगी। यह प्रतिमाएं 6 इंच से 35 इंच तक की होगी। इन्हें बैकों के साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कई मंडलों के कुल मिला कर 20 से अधिक जयें जाएंगे। कई जयें माप के विभिन्न स्थानों से गोपाल से सफाई करवाकर ले जायेंगे। मंडल ने अमरनाथ प्रांजल बोर्ड को पत्र लिख कर अमरनाथ यात्रा के लिए जल्द ही रेलिकॉन्टरे सेवा की बुकिंग प्रारंभ करने की मांग की है। निम्नलिखित लोग अपनी पसंद की तारीख में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते। मंडल के सचिव रिक्त भरे जाने के बाद गोपाल से इस साल भी 30 से 35 हजार तक के अमरनाथ यात्रा पर जाने का अनुमान है। लोग जम्मू एंड कश्मीर बैक टैटो नगर शाखा और पंजाब नेशनल बैक शाखा में जाकर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 52 दिनों की होगी जो कि 29 जून से प्रारंभ होकर 19 अगस्त रक्षाबंधन को समाप्त होगी।

हजयात्रा के लिए तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 4 मई तक बढ़ी

विजयमत, गोपाल। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस साल की हज यात्रा में भाग लेने वालों के लिए तीसरी किस्त के भुगतान की आखिरी तारीख 4 मई तक बढ़ा दी है। पिछले नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरी किस्त का भुगतान पिछले शनिवार तक पूरा किया जाना था। देश में 26,35 लोगों ने भुगतान नहीं किया है। इस समस्या के कारण भुगतान करने की समावधि बढ़ा दी गई है। प्रदेश से इस बार हज यात्रा करने जा रहे हिन लोगों ने तो किस्त जमा कर दी है, उनको अब तीसरी किस्त जमा करना है, वे जल्द से जल्द तीसरी किस्त जमा करें, जिससे गोपाल से जाने वालों को 1,35,350 रुपाए करणे वही इच्छा से जाने वाले हजयात्री 1,19,400 रुपाए जमा और मुंबई से हजयात्रा पर जाने वालों को 69,350 रुपाए जमा करना होगा। यह धनराशि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के भारतीय स्टेट बैंक और यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पे-डन-स्लीप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी किस्त ऑनलाइन जमा की जा सकती है। किस्त की रसीद अतिरिक्त राज्य हज समिति में जमा करें। हज पर जाने वालों को टीके भी लगाए जाएंगे और हज तस्वीर कैमरा भी आयोजित किए जाएंगे। सेंट्रल हज कमेटी के शेड्यूल के हिसाब से 9 मई से प्रदेश के हजयात्रियों को पलाइड शुरू होगी।

श्रमिक नेताओं का सम्मान आज

विजयमत, गोपाल। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर निगम मंडल बोर्ड बुधवार (1 मई) को गोपाल के शौर्य पार्क के सामने श्रमिक नेता शक्ति अन्य श्रमिकों का सम्मान करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ श्रमिक नेता वीरेंद्र खोलन करेगे। कार्यक्रमी नेता अजित राजपेयी एवं अरुण वर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम, अर्द्ध शासकीय-अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वावधान में 1 मई 2024 को दोपहर 3 बजे 9 प्रस्ताव शौर्य पार्क के सामने श्रमिक नेता सतिम अली अंसारी, रयाम सुन्दर शर्मा, जे एस रावटे, डॉ. बी एस दोहरे, आर पी संख्या, वी एन वर्तिस, सुरेश्वरी पटेल, एस सी त्रिपाठी, इग्रेस फासिस लारेयस का सार्वजनिक सम्मान किया जायेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर परसाई, विशिष्ट अतिथि राधेश अयाल होगा। इस मौके पर कर्मचारी नेता अरुण वर्मा एवं अजित राजपेयी ने सम्मान निगम मंडल, सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपकरण के कर्मचारियों अधिकारियों श्रमिकों से अनुरोध किया है कि मजदूर श्रमिकों के सम्मान में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाएं।

बंद नहीं होगी लाडली बहना योजना सहित कोई भी योजना: शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हालत बदल दी: मोहन

विजयमत, रायसेन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में जिला रायसेन के बेगमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबको पता है कि भगवान श्रीराम कहां पैदा हुए थे, लेकिन कांग्रेस को नहीं मालूम है। अब तो देश की जनता ही बताएगी कि जिनको श्रीराम के जन्म स्थान का नहीं पता वे कैसे इस देश में रहने के लायक हैं। कांग्रेस 70 साल तक इस देश पर राज करती रही, लेकिन श्रीराम मंदिर को लेकर कोई पहल नहीं की। हमेशा से मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाया, अब तो जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने विकास के काम किए हैं, उतने कांग्रेस ने कभी नहीं किए। आज कांग्रेस के उल्टे फैसलों के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई है कि इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। कांग्रेस में अब कोई दम नहीं बचा है। कांग्रेस अब किसी काम की नहीं रही है।



फैसलों के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई है कि इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। कांग्रेस में अब कोई दम नहीं बचा है। कांग्रेस अब किसी काम की नहीं रही है।

कांग्रेस अब किसी काम की नहीं बची है- शिवराज सिंह चौहान... विदिशा लोकसभा क्षेत्र के बेगमगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने विकास के काम किए हैं, उतने कांग्रेस ने कभी नहीं किए। आज कांग्रेस के उल्टे फैसलों के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई है कि इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। पार्टी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस छोड़कर इसलिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कांग्रेस ने अब कोई दम नहीं बचा है। हमारी पार्टी का विजय साफ है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने, लेकिन इंड गठबंधन में कुछ साफ नहीं है कि पक्ष बनना, मज, कसू बनना या मुकमल बनना। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध कर तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। श्रीराम मंदिर प्राण-पतिव्रत समारोह का निगम भी टुकड़ा दिया।

हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज से मांगा जवाब एसटी-ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित पदों पर अन्य की नियुक्ति

विजयमत, जबलपुर
अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित पदों पर अन्य की नियुक्ति की गई है। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन से जवाब मांगा है। गांधी मेडिकल कॉलेज ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए थे। आरक्षित वर्ग के पदों पर अन्य वर्ग की भर्ती किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल से इस संबंध में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता रेनु यादव की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा



गया था कि गांधी मेडिकल कॉलेज ने सहायक प्रोफेसर के पांच पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के अनुसार, चार पद एसटी तथा एक पद ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित था। उसने भी सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया था। उसे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित भी किया गया था। याचिका में कहा गया था कि इंटरव्यू के बाद रिजल्ट के संबंध में उसे अभी तक अवगत नहीं करवाया गया है।

मेडिकल कॉलेज का नया नियम बना मुरीबत भोपाल।

मध्य प्रदेश के विदिशा के अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज में नए नियमों की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में इलाज करने के लिए मरीजों को आधा ऐप मोबाइल पर इंस्टॉल करने को कहा गया है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। पचा बनवाने के लिए लाइन में लगे लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोपेड मोबाइल है, और वह ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। वहीं इस स्थिति की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जहां अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए आए हैं, वह कई घंटे तक इस नई प्रक्रिया के चलते इलाज नहीं करा पा रहे। कई ऐसे लोग भी सामने आए, जिन्होंने ऐप तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से वह आगे काम नहीं कर रहा है।

बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट को लेकर कमलनाथ बोले- झूठ बोलने की जगह बच्चों का भविष्य संभाले मध्य प्रदेश सरकार

विजयमत, गोपाल
बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, झूठ बोलने की जगह बच्चों का भविष्य संभाले सरकार। कुछ दिन पहले आए मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के खराब रिजल्ट नई शिक्षा भी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को घेरा है। कमलनाथ ने अपने सोशल साइट एक पर लिखा है कि मध्य प्रदेश की 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम का जो विश्लेषण अब सामने आ रहा है, वह और भी ज्यादा चिंताजनक है। अगर 30 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो सभी विषय में फेल हो गए तो हमें सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है और इसकी गुणवत्ता किस तरह कमजोर होती जा रही है? सरकार झूठ बोलने की जगह बच्चों के भविष्य की चिंता करे। उन्होंने आगे लिखा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपने



बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है। अगर भविष्य खराब हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने, अध्यापकों की समुचित संख्या तैनात करने, अतिथि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने की कोई पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजनैतिक नेतृत्व को इवेंटवाजी और विज्ञापनों से फूरसत नहीं है। बेहतर होगा सरकार झूठ के बल पर अपना चेहरा चमकाने के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक निवेश और सुधार कर बच्चों का भविष्य चमकाए।

खास-खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया: वानती श्रीनिवासन

भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को उनके घर-घर तक पहुंचाया: आर्य

विजयमत, ग्वालियर, मंड
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानती श्रीनिवासन ने भिंड जिले के गोहर में महिला हितग्राही सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को हमेशा से सम्मान मिला है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश की डबल इंजन भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया



नारोलिया ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए भिंड लोकसभा की पार्टी प्रत्याशी श्रीमती संख्या राय को सांसद बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानती श्रीनिवासन ने

लोकसभा चुनाव भारत को समृद्ध, विकसित बनाने और महिला सशक्तिकरण के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में महिलाओं के सम्मान, उथान और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं जिसमें लाडली बहना, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती श्रीनिवासन ने कहा कि 7 नेतृत्व में महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर विकास की दिशा से जोड़ने का कार्य किया है। यह

आज से भरे जाएंगे 10वीं-12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म

विजयमत, गोपाल
मध्य प्रदेश में 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म 1 मई से भरे जाएंगे। 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले तक भरे जा सकेंगे। एमपी बोर्ड ने इस बार बेस्ट फाइव योजना के तहत रिजल्ट घोषित किया है। छात्र-छात्राएं सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 1-20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तारीख को भिंड लोकसभा में मतदान होने जा रहा है, जिसमें भाजपा ने श्रीमती संख्या राय को प्रत्याशी बनाया है।

करना होगा। फिर आपके सामने सप्लीमेंट्री परीक्षा का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए गए थे। इस बार 10वीं में 8 लाख 21 हजार 086 नियमित स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी हुआ। 3 लाख 5 हजार 067 स्टूडेंट्स 1 लाख 863 स्टूडेंट्स 2 लाख 391 स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री आई है। 12वीं में 6 लाख 23 हजार 341 नियमित स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी हुआ।